



# सूरभूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा



वर्ष-12 अंक:39 ता. 01 अगस्त 2023, मंगलवार, कार्यालय: 114, न्यु प्रियंका टाउनशिप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूत ( गुजरात ) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@surabhi.com



/Surabhi.com



/Surabhi



/Surabhi



/Surabhi



/Surabhi

दिल्ली के बापरोला में बने  
इलेक्ट्रॉनिक सिटी के कम लागत  
वाले आवासीय प्लेट

नई दिल्ली। दिल्ली के बापरोला (नजफगढ़) में विकसित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी (औद्योगिक क्षेत्र) के साथ सरकार कम लागत वाले प्लेट विकसित करने की भी योजना बना रही है। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय परिसर दोनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम ने यहाँ उपलब्ध कुल 135 एकड़ जमीन में से 97.08 एकड़ जमीन का मूल्यांकन कराने के लिए सलाहकार नियुक्त कर रहा है।

बजट में घोषणा की थी : दिल्ली सरकार ने बजट में बापरोला में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने की घोषणा की थी। बजट में इसके लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से जमीन भी मिल चुकी है। डीएसआईआईडीसी कुल जमीन में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 55.18 एकड़, आवासीय परिसर के लिए 27.38 एकड़, रिक्रिएशन सेंटर के लिए 6.47 एकड़ और 17.13 एकड़ पर बने 2112 प्लेटों का मूल्यांकन करा रहा है। सरकार कम लागत वाले प्लेट तैयार कराएगी दिल्ली सरकार का मानना है कि राजधानी में काम करने वालों के लिए यहाँ रहना सबसे ज्यादा महंगा है। इसलिए सरकार औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास कम लागत वाले प्लेट बनाना चाहती है। इस कदम से दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि यहाँ पर लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार मिलेंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने का प्रस्ताव दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मकसद एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र तैयार करना है। जहाँ लोगों को काम करने का अच्छा मौक़ा दिया जाएगा। यहाँ ऑफिस के लिए बड़े परिसर, वेयर हाउस के मनोरंजन केंद्र और आवासीय परिसर विकसित करना है, लेकिन आने वाले उद्योगों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने 8 जून को हुई एक बैठक में इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के रूप में भी विकसित करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। विभाग उस पर भी काम कर रहा है।

बाजार प्रतिस्पर्धा का भी आकलन होगा जमीन की मार्केट वैल्यू का पता लगाने के लिए मूल्यांकन कराया जाएगा। साथ ही आसपास चल रही प्रतिस्पर्धी योजनाएं का भी आकलन कराया जाएगा।

## अंधेरे का फायदा उठा एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने ढेर कर दिया

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा में एलओसी पर आधी रात के बाद एक घुसपैठ को मार गिराया गया। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि जवानों ने सदिह हरकत देखकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने वाले को ढेर कर दिया। घटना अर्निया सेक्टर की है। अधिकारियों का कहना है कि रात करीब 2 बजे आतंकी मारा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले 24 जुलाई को भी बीएसएफ ने ड्रा तस्करी की कोशिश को नाकाम करा दिया था और सांबा के रामगढ़ इलाके में एक सदिह को मार गिराया था। 17 जुलाई को पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में घुसपैठ करने वाले दो आतंकी को मार गिराया



गया था। सुरक्षाबलों ने बताया कि 23 जून को भी कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चार आतंकी को मार गिराया गया था। उनके पास से गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया था। इसमें नौ एके सीरीज की राइफलें शामिल थीं। इसके अलावा तीन पिस्तौल, ग्रेनेड,

कई कारतूस बरामद हुए थे। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रा तस्करी को लेकर भी बार-बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है। हालांकि सीमा पर तैनात जवान सतर्कता बरतते हुए उन्हें ढेर कर देते हैं। पंजाब में पाकिस्तान की सीमा पर अक्सर ड्रा भी पाए जाते हैं जिनके जरिए ड्रास भेजने की कोशिश की जाती है।

## दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट, पंजाब-हरियाणा में भी बरसेंगे बादल

नई दिल्ली। तपती गर्मी और सूखे का संकट श्ले रहे बिहार के किसानों को राहत मिल सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने 31 जुलाई को जारी अपनी रिपोर्ट में देश के अलग-अलग हिस्सों में अगले पांच दिनों तक हल्की से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। आइए आज की रिपोर्ट के बारे में जानते हैं।

लेकर चार अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी 2 अगस्त तक बादल बरसने के आसार हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ एक से चार अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में 2-3 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर अगले पांच दिनों तक बादल बरसे के आसार हैं।

बिहार में करवट लेगा मौसम बिहार के किसान मौसम सूनु को बेरुखी से पेशान हैं। पूरे प्रदेश में सूखे का संकट मंडा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार, झारखंड और ओडिशा में 32 जुलाई से लेकर 4

अगस्त तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिम बंगाल में भी 2 अगस्त तक बादल बरसने की संभावना है। सिक्किम में तीन अगस्त को बारिश हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी बारिश होती रहेगी। अगले पांच दिनों के दौरान अलग-अलग जगहों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, आईएमडी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मजिरोम और त्रिपुरा में 1 से 3 अगस्त तक मूसलाधार बारिश हो सकती है।

राजस्थान के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान कई

हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। शनिवार सुबह 8.30 बजे से रविवार सुबह 8.30 बजे के बीच सोरकर के दांतरामगढ़ में सबसे ज्यादा 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि नवलगढ़ में 10 सेंटीमीटर पानी बरसा। बामनवास (सवाई माधोपुर) और उदयपुरवाडी (जुझुन) में 10-10 सेंटीमीटर, श्रीमधोपुर (सोरकर) में नौ सेंटीमीटर, चोम (जयपुर) और हनुमानगढ़ में सात सेंटीमीटर और अन्य जगहों पर एक से छह सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश का स्लिपसिला जारी रहने की संभावना जताई है।

## जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग, एसई सहित 4 की मौत; गोली चलाने वाला गिरफ्तार

मरने वालों में आरपीएफ के एक एसआई और तीन यात्री शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कॉन्स्टेबल चेतन ने गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया है।

मुंबई। गुजरात से मुंबई आ रही जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें चार लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई है। मरने वालों में आरपीएफ के एक एसआई और तीन यात्री शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कॉन्स्टेबल चेतन ने गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि जयपुर एक्सप्रेस जयपुर से मुंबई जा रही थी। खबरों के मुताबिक, कॉन्स्टेबल की अपने सहकर्मी से बहस हो गई और जब कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया तो आरोपी ने गोली चला दी जिससे चार लोगों की मौत हो गई। फायरिंग की यह घटना 31 जुलाई को सुबह 5.23 बजे ट्रेन संख्या 12956 जयपुर एक्सप्रेस में हुई है। बोगी बी-5 में गोली चली। एस्कॉर्ट ड्यूटी में



तैनात सीटी चेतन ने एस्कॉर्ट प्रभारी एसआई पर गोली चलाई। कॉन्स्टेबल को भायंदर चौकी पर पकड़ा गया है। डीसीपी नॉर्थ सीनियर की हत्या करने के बाद कॉन्स्टेबल दूसरी बोगी में गया और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी रेलवे पुलिस और आरपीएफ अधिकारियों की मदद से कॉन्स्टेबल को मीर रोड पर पुलिस ने पकड़ लिया।

## कर्नाटक में नलिन कुमार कतील के 'फ्लॉप शो' के बाद नया अध्यक्ष कौन ? रेस में सीटी रवि सबसे आगे

बेंगलूरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद बीजेपी प्रदेश में बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। चार साल तक प्रदेश की कमान संभालने के बाद नलिन कुमार कतील को उनके चुनाव में 'फ्लॉप शो' के बाद पद से हटाया जा सकता है। चर्चा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि इस रेस में सबसे आगे हैं। 10 मई के विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को बूट करने के लिए शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में जल्द बड़ा बदलाव कर सकता है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि पार्टी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जल्द ही घोषणा कर सकती है। लोकसभा चुनाव में एक साल से भी



कम समय बचा है और सत्तारूढ़ कांग्रेस अपनी शानदार चुनावी जीत के बाद राज्य भर में आक्रामक हो गई है। इस बात की जोरदार चर्चा है कि वरिष्ठ नेता सीटी रवि मंगलूरु के सांसद नलिनकुमार कतील की जगह ले सकते हैं, कतील लगभग

चार साल कर्नाटक चीफ के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शनिवार को हुए संगठनात्मक सुधार में पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें निर्बाई गई राष्ट्रीय भूमिका से हटा दिए जाने के बाद अटकलें तेज हो गईं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि कनिष्ठ कृषि मंत्री शोभा करंदलाजे और पूर्व डिप्टी सीएम सीएम अश्वथ नारायण के नाम भी पार्टी प्रमुख पद के लिए चर्चा में हैं। सूत्रों ने कहा कि नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही पूरी करना चाहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों में व्यवस्था रह सकती है। सीटी रवि ने अपनी संभावित पदोन्नति के बारे में न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 35 साल पहले बृथ अध्यक्ष के रूप में अपने दिनों से पार्टी द्वारा सीपी गई सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। 56 वर्षीय नेता राजनीतिक रूप से उतने ही आक्रामक बने हुए हैं, जितने चुनाव से पहले थे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि रवि दो अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे।

## चंद्रमा की कक्षा से सिर्फ 6 दिन दूर चंद्रयान-3, इसरो 1 अगस्त को थ्रस्टर्स चालू करेगा

बेंगलूरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए 1 अगस्त की तारीख तय किया है। इसरो 1 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे के बीच चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को चालू करेगा। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि चंद्रयान-3 अब चांद की कक्षा में पहुंचने से सिर्फ 6 दिन दूर है। इसरो के मुताबिक, ट्रांस-लूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया पूरा होने में 28 से 31 मिनट के बीच का समय लगेगा। इस प्रक्रिया को मध्यरात्रि में किया जाएगा। साथ ही चंद्रयान-3 के ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को तब फायर किया जाएगा, जब चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रयान-3 का वेग निकटतम बिंदु पर होगा, न कि तब जब सबसे दूर के बिंदु पर होगा।



पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान-3 का वेग चंद्रयान-3 मीजुदा वक्त में 1 किमी/सेकंड और 10.3 किमी/सेकंड के बीच के वेग से एक अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रयान-3 का वेग धरती के सबसे करीबी बिंदु पर सबसे ज्यादा (10.3 किमी/सेकंड) और धरती से सबसे

दूर बिंदु पर सबसे कम होता है। चंद्रयान-3 की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करते समय उसको तेज रफ्तार की जरूरत होगी। दूसरा कारण यह है कि चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए, इसके कोण को बदलना होगा, जिससे चंद्रयान-3 के धरती के सबसे करीबी बिंदु पर बदला जा सकता है।

छह घंटे में टीएलआई लोड होगा प्रक्रिया में थ्रस्टर्स के चालू होने से लगभग पांच-छह घंटे पहले ट्रांस-लूनर इंजेक्शन (टीएलआई) के कमांड को लोड किया जाएगा। इससे चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए चंद्रयान-3 को अपना कोण बदलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा थ्रस्टर्स की फायरिंग से इसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। टीएलआई के बाद चंद्रयान-3 का वेग परिणामी

की तुलना में लगभग 0.5 किमी/सेकंड अधिक होने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 को औसतन 1.2 लाख किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 51 घंटे का समय लगेगा है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3.8 लाख किमी है। हालांकि, किसी भी दिन वास्तविक दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अलग होगी।

लौंडिंग की क्या है प्रक्रिया? चंद्रयान-3 का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद होगा। चंद्रयान-3 जब चंद्रमा की कक्षा में एक बार पहुंच जाएगा, तो इसरो को चंद्रयान-3 की ऊंचाई को कम करना और उसे 100 किमी की तालिकावर कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करना होगा।

## हाई स्पीडिंग रोकने का नया फार्मूला तैयार, फास्टिंग से चालान काटने की तैयारी

नई दिल्ली। सड़क पर निर्धारित गति से अधिक की स्पीड पर गाड़ी चलाने वालों को रोकने के लिए अब यातायात पुलिस ने नया फार्मूला निकाला है। यदि कोई निर्धारित स्पीड से तेज भागते हुए निकलेगा तो उसके फास्टिंग एकाउंट से चालान काटा जाएगा। यह बात सही है कि भारत में सड़क और यातायात से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आते हैं। इनमें से एक नियम का उल्लंघन सबसे ज्यादा होता है वह है स्पीडिंग, यानी तय सीमा से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना। ऐसे में मामलों से निपटान पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब पुलिस ने इससे निपटने के लिए नया तरीका इजाजत किया है। बैंगलोर और मैसूर एक्सप्रेस वे पर स्पीडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों का फाइन अब सीधे उनके फास्टिंग एकाउंट से काटेंगे। इस 6 लेन स्ट्रेट एक्सप्रेस वे पर 100 किमी प्रति घंटा की स्पीड डील्ट है। इससे ज्यादा रफतार में गाड़ी चलाने वालों का अब चालान सीधे उनके फास्टिंग एकाउंट से काटेगा। पुलिस की इस इस फंडस का उद्देश्य रिसपोन्सिबल ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। इस एक्सप्रेस वे पर बीते कुछ वक्त में एक्सिडेंट्स के मामले तेजी से बढ़े हैं। वर्तमान में फास्टिंग के जरिए दिए गए फाइन एनएचआई को भेजे जाते हैं। अब बैंगलोर पुलिस इन फंडस को सीधे नॉन-मैट ट्रेजरी में ट्रांसफर करेगी। फास्टिंग खातों से सीधे जुर्माना काटने से मोटर चालकों और अधिकारियों दोनों के लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। इससे मैनुअल जुर्माना उसूलों की जरूरत खत्म हो जाएगी। यातायात की भीड़ को कम करता है और रोड सेफ्टी को भी बढ़ावा देता है। जुर्माने का सीधा असर उनके फास्टिंग खातों पर पड़ने से, ड्राइवर ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और स्पीड लिमिट का पालन करेंगे, जिससे सड़क सुरक्षित होगी।

## सारी दुनिया में बढ़ रही है शाकाहारी भोजन की मांग

नई दिल्ली। ब्रिटेन की मार्केटिंग रिसर्च और डाटा एनालिसिस फर्म यूगोव के अध्ययन से जानकारी मिली है, कि दुनिया भर के सभी देशों में शाकाहारी भोजन की मांग बढ़ी है। शाकाहारी रेस्टोरेंट कोरोना के बाद बड़ी तेजी के साथ दुनिया के देशों में बढ़े हैं। साइलेंट हार्ट अटैक और बढ़ते कैंसर के डर से दुनिया भर के देशों में शाकाहारी भोजन की मांग बढ़ रही है। द ग्रेट ग्रीन वॉल 2023 के अध्ययन में भी यह माना गया है, कि हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारियां शाकाहारी भोजन से कम होती हैं।

शाकाहारी भोजन की खासियत: शाकाहारी भोजन का विकल्प बड़ी तेजी के साथ चुना जा रहा है। शाकाहारी भोजन में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेथियम, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन ए, सी और ई, अच्छी मात्रा में मौजूद रहता है। शाकाहारी भोजन लगभग 120 बीमारियों में लाभकारी साबित हुआ है।

साउथ चाइना मॉनिंग पोस्ट की मानें तो 47 फीसदी चीनी नागरिक अब फलों और सब्जियों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। कोरोना के बाद शाकाहारी रेस्टोरेंट 36 फीसदी चीन में बढ़ गए हैं। ब्रिटेन में भी बड़ी तेजी के साथ शाकाहारी रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। यहां पर भी शाकाहारी भोजन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

भारत में 65 फीसदी शाकाहारी: भारत के 65 फीसदी भारतीयों ने 2022 में शाकाहारी भोजन का विकल्प चुना है। भारत के महानगरों में कोरोना के बाद वैजेटेरियन पिज्जा, बर्गर, पारस्ता एव अन्य फास्ट फूड की बिक्री 70 फीसदी तक बढ़ गई है। जो 2022 के पहले अधिकतम 50 फीसदी थी।

## अब आंध्र प्रदेश के किसान ने 40,000 टमाटर के बक्से बेच कमाए 4 करोड़

चेन्नई। देशभर में ऐसे कई किसान सामने आए हैं जिन्होंने टमाटर की खेती से अपने सालों की मेहनत को एक ही झटके में पूरा कर लिया। दरअसल, अब आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक किसान ने 45 दिनों में टमाटर की बिक्री कर करीब 4 करोड़ रुपये की आमदानी की। किसान ने इस साल 22 एकड़ कृषि भूमि में टमाटर की खेती की और 45 दिनों की अवधि में 40,000 बक्से टमाटर बेचे, जिसके परिणामस्वरूप देश में टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच, 4 करोड़ रुपये की प्रभावाशाली आय हुई। पिछले 45 दिनों में चंद्रमौली ने अपनी टमाटर की उपज कर्नाटक के नजदीकी कोलार बाजार में बेची, जो सुविधाजनक रूप से उनके गृहभार के करीब स्थित है। इस अवधि के दौरान, टमाटर की 15 किलोग्राम ब्रैट की कीमत 1,000 और 1,500 के बीच रही। वहीं किसान के हवाले से कहा कि अब तक मुझे जो उजज मिली है, उससे मैंने 4 करोड़ कमाए हैं। कुल मिलाकर मुझे उपज प्राप्त करने के लिए अपनी 22 एकड़ जमीन में 1 करोड़ का निवेश करना पड़ा और इसमें कमीशन और परिवहन शुल्क शामिल है। इसलिए मुनाफा 3 करोड़ ही रहेगा।

## रेप का आरोप लगने के बाद बीजेपी नेता ने फेसबुक लाइव पर खाया जहर

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा किसान मोर्चा के जिला संयोजक वीर सिंह की एक मंदिर में स्थानीय लोगों ने पिटाई की थी। बाद में एक महिला के बलात्कार के आरोप में उन पर केस भी दर्ज कराया गया था। वीर सिंह ने फेसबुक लाइव पर यह कहे हुए जहर खा लिया कि इस आरोप के बाद वह अपनी 15 साल की बेटी को मृत नहीं दिखा सकते। 7 मिनट लंबे वीडियो में 40 साल के वीर सिंह ने कहा कि मेरी 15 साल की बेटी है और इस अपमान के बाद उसे अपना चेहरा दिखाना मुश्किल है। वीर सिंह ने कहा कि बलात्कार के आरोप झूठे हैं और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि मेरी पार्टी के साथियों ने भी मेरा समर्थन नहीं किया। कॉन्सैटिक की दुकान चलाने वाले कांड क्षेत्र के निवासी वीर सिंह ने आरोप लगाया कि यह सब संपत्ति विवाद के कारण मेरी पार्टी के इंधनलु सदस्यों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ और वर्तमान में साधन महीने के दौरान रख रहा हूँ। इस बीच, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सदीप कुमार मीणा ने कहा कि वीर सिंह का गुरुवार को कांड इलाके में एक मंदिर समिति के अध्यक्ष के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। एस्पपी ने बताया कि वीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उन पर मंदिर परिसर में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। हमने दोनों लोगों के खिलाफ प्रारंभिकी दर्ज की है। जब हमें पता चला कि सिंह ने जहर खा लिया और बेहोश हो गए, हम उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। उनकी हालत में सुधार हुआ है और हम जल्द ही उनका अरोपण दर्ज करेंगे। हमने उनके परिवार को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

## मेरे परिवार का कोई सदस्य डब्ल्यूएफआई चुनाव में दावेदारी पेश नहीं कर रहा: बृज भूषण

नयी दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने सोमवार को कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य राष्ट्रीय खेल संस्था के आगामी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने दोहराया कि उनके गुरु को 22 राज्य संघों का समर्थन हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृज भूषण ने दावा किया है कि रविवार को उनकी मेजबानी में हुई बैठक में 25 राज्य इकाइयों में से 22 ने हिस्सा लिया। उन्होंने साथ ही कहा कि महासंघ के 12 अगस्त को होने वाले चुनावों के विभिन्न पदों के लिए 'उनके उम्मीदवारों' की घोषणा सोमवार को की जाएगी। बृज भूषण सोमवार को डब्ल्यूएफआई चुनावों के लिए नामांकन के अंतिम दिन यहां भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के कार्यालय भी गए। बृज भूषण ने कहा, 'आज नामांकन का अंतिम दिन है, 22 राज्य संघों के सदस्य यहां थे और वे मिलने के लिए आए हैं और अब अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। इनमें मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है।' उन्होंने कहा, 'पहले चुनाव होने दौड़िए और फिर जो भी जीता वह अपना काम करेगा।' ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक तथा एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष छह पहलवानों ने बृज भूषण पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन भी किया था। बृज भूषण हालांकि चुनाव लड़ने के पान नहीं हैं क्योंकि वह राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख के तौर पर 12 साल पूरे कर चुके हैं जो राष्ट्रीय खेल संहिता के तहत पद पर बने रहने के लिए अधिकतम समय है। बृज भूषण का बेटा करण भी मतदाता सूची का हिस्सा नहीं है क्योंकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा।



अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। इनमें मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है।' उन्होंने कहा, 'पहले चुनाव होने दौड़िए और फिर जो भी जीता वह अपना काम करेगा।' ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक तथा एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष छह पहलवानों ने बृज भूषण पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन भी किया था। बृज भूषण हालांकि चुनाव लड़ने के पान नहीं हैं क्योंकि वह राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख के तौर पर 12 साल पूरे कर चुके हैं जो राष्ट्रीय खेल संहिता के तहत पद पर बने रहने के लिए अधिकतम समय है। बृज भूषण का बेटा करण भी मतदाता सूची का हिस्सा नहीं है क्योंकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा।

# इंडिया के सांसदों ने संसद में विपक्षी नेताओं को दी मणिपुर के हालात की जानकारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। गठबंधन इंडिया के सांसदों ने मणिपुर का हाल ही में दौरा किया और उसकी जानकारी विपक्षी सांसदों को दी। खबर के मुताबिक हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने वाले भारतीय राष्ट्रीय विकासालयक समावेशी गठबंधन (इंडिया) के 21 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को संसद में विपक्षी दलों के प्रचार नेताओं को जानकारी दी। 21 सांसदों की हुई बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सांसदों ने मणिपुर की अपनी दो दिवसीय यात्रा का अनुभव साझा किया, जहां उन्होंने महत शिविरों में पीड़ितों और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर मणिपुर की भाजपा सरकार के साथ-साथ केंद्र की भी आलोचना की और कहा कि दोनों सरकारों ने इस मामले पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे चौधरी ने कहा कि चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वे कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। दोनों सरकारों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं।



बता दें कि मणिपुर का दौरा करने वाले इंडिया के सदस्यों ने वहां से लौटने के बाद यहां संवाददाताओं से भी बातचीत की। दिल्ली रवाना होने से पहले विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और उन्हें एक

जापन सौंपा। इसमें पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाली का आग्रह किया गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मणिपुर में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं।

## केंद्र सरकार मणिपुर पर बात करने के लिए तैयार: अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को दोहराया कि सरकार मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष पर संसद में बहस से भागने का आरोप लगाया। ठाकुर ने एक टीवी में लिखा कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ मणिपुर पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि मणिपुर गए सभी सांसद (विपक्ष) कल सदन में चर्चा के लिए आएंगे। वे भागें नहीं और अपना अनुभव साझा करेंगे। मणिपुर के साथ-साथ केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान कई महीनों तक मणिपुर बंद रहा। उस दौरान न तो प्रधानमंत्री और न ही गृहमंत्री ने कोई बयान दिया था। इससे पहले दिन में लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर मणिपुर की भाजपा सरकार के साथ-साथ केंद्र की भी आलोचना की और कहा कि दोनों सरकारों ने इस मामले पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने शामिल चौधरी ने कहा कि चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वे (मणिपुर मुद्दे पर) कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। दोनों सरकारों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने इम्फाल स्थित राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और एक जापन सौंपा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाली का आग्रह किया गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन बीरन सिंह को दोषी ठहरा रहे हैं और उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं।

# सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान-ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज ऐतिहासिक गलती मानते हुए प्रस्ताव लाये

लखनऊ (एजेंसी)। सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म बता चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उसे मस्जिद कहने से विवाद होगा। उन्होंने कहा कि जिसके पास भी पुराण है वह देख सकता है कि वहां क्या था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर वह मंदिर नहीं है तो त्रिशूल कहां से आ गया। योगी ने एएनआई की स्मिता प्रकाश के साथ एक पॉडकास्ट में कहा कि मंदिर को दीवारों चीख चीख कर जो कह रही है उसे सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की ओर से ही प्रस्ताव आना चाहिए कि जो ऐतिहासिक गलती हुई है उसे सुधार जाये।



चूंकि मुख्य न्यायाधीश की अदालत में नियमित कार्य पूरा हो गया था, इसलिए न्यायमूर्ति दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को बहस करने के लिए कहा। सुनवाई शुरू होने पर भारतीय पुराण विभाग (एएसआई) के अपर दिव्यक ने अदालत को बताया कि एएसआई किसी हिस्से में खुदाई कराने नहीं जा रही है। वह मुख्य न्यायाधीश के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आपका का उखलन (एक्सकेवेशन) से क्या अंश है? एएसआई के अधिकारी ने कहा कि काल निर्धारण और पुरातात्विक गतिविधियों से जुड़ी किसी गतिविधि को उखलन कहा जाता है, लेकिन हम स्मारक के किसी हिस्से की खुदाई (डिगिंग) करने नहीं जा रहे। मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि वाद की पोषणीयता स्वयं उच्चतम न्यायालय में लंबित है और यदि उच्चतम न्यायालय बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह वाद पोषणीय नहीं है तो संपूर्ण कवायद बेकार जाएगी। इसलिए सर्वेक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद किया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसला सुरक्षित किए जाने के बाद अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया, 'मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए विशेषज्ञ नहीं भेजा जा सकता, लेकिन हमने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि विशेषज्ञ भेजा जा सकता है।' उन्होंने कहा, 'हमने दलील दी कि एएसआई को

राम मंदिर मामले में पैरा 361 में विशेषज्ञ निकाय माना गया है। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष कह सकता है कि इसकी स्फूर्ति की जाए, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि विशेषज्ञ मत ना आए।' जैन ने बताया कि एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया हम खंचे को क्षति पहुंचाए बिना करेगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को पूरी तरह से सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार है और सर्वेक्षण को लेकर कोई चिंता नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एक तार्किक परिणाम पर पहुंचने के लिए अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया जोकि आवश्यक है। जैन ने मस्जिद के पश्चिम तरफ के फोटोग्राफ भी दिखाए जिसमें हिंदू पूजा स्थल के संकेत मौजूद हैं। इससे पूर्व, मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा, 'जब वादी के पास अपने मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य ना हो तो अदालत साक्ष्य संग्रह करने के लिए विशेषज्ञ नहीं भेजा करती।' इससे से?मिली जानकारी के अनुसार चंद्रयान-3 मौजूदा वक्त में 1


# छह दिन बाद धरती की कक्षा से निकल कर चांद्र की सैर करेगा चंद्रयान-3

–1 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे के बीच इसरो देगा इस अहम काम का अंजाम

बेंगलुरु (एजेंसी)। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन को पंच लग गए हैं, और अब यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल कर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला है। हालांकि इसके लिए अभी छह दिन और लगेगे। इस तरह से भारत का तीसरा मूल मिशन, चंद्रयान-3 अब चांद्र की कक्षा में पहुंचने से महज 6 दिन दूर है। जानकारी के अनुसार इसरो ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए 1 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे के बीच उसके थ्रस्टर्स को चालू करने की योजना बनाई गई है। मध्यरात्रि में ट्रांस-लूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को पूरा होने में 28 से 31 मिनट के बीच का समय लगने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 के ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को तब फायर किया जाएगा, जब चंद्रयान-3 पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होगा, न कि तब जब सबसे दूर के बिंदु पर होगा। चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को चालू करके उसकी रफतार बढ़ाने की कोशिश, उसके धरती के सबसे करीब बिंदु से इसलिए की जाती है क्योंकि तब उसकी गति सबसे ज्यादा होती है। इससे से?मिली जानकारी के अनुसार चंद्रयान-3 मौजूदा वक्त में 1

## लालू परिवार को बड़ा झटका, ईडी ने 6 करोड़ रुपये की संपत्ति जप्त की


नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सोमवार को जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति कुर्क कर ली। संपत्तियों में यादव परिवार की दिल्ली और पटना की संपत्ति शामिल है, जिसमें यू फेड्स कॉलोनी में एक आवासीय घर भी शामिल है। यह तब हुआ है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को नौकरी के लिए भूमि घोटाले के संबंध में अपनी नई चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव का नाम लिया है। आरोप पत्र, जिसमें 14 अन्य लोगों के भी नाम हैं, मामले में दूसरा आरोप पत्र है।



अपराध के लाभाभी थे। उन्होंने कहा कि यादव परिवार के सदस्यों के अलावा, सीबीआई ने मामले में एके इंसोस्टिस्ट्स और कई विचौलियों को भी नामित किया है। आरोप पत्र विशेष सीबीआई अदालत में दायर किया गया था। आरोप यह है कि 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जेलों रेलवे में आरोप लगाया गया कि तेजस्वी और राबड़ी कथित

# 2024 में पुनः केन्द्र में बनेगी भाजपा सरकार: सांसद बी. पी. सरोज

संवाददाता राजेश मौर्या। केन्द्र की मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। मोदी और योगी जो ये न मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, बिजली पानी समेत सभी क्षेत्रों में काम किया है जिससे देश का किसान नौजवान, महिला, छात्र और समाज का सभी तबका लाभार्थित हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि विश्व स्तर पर मोदीजी ने देश का गौरव बढ़ाया है और मोदी की हथौथों में देश को सोमाएँ सुरक्षित है, इसलिए जनता जनार्दन के अशीर्वाद से पुनः 2024 में ब्रह्म की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जनता ने इसके लिए मत बना लिया है, उक्त बातें मल्लोशहर लोकसभा के सांसद डॉ पी सरोज ने पत्रकारों से बातों के क्रम में कही। सांसद डॉ पी सरोज ने बताया कि इस बार सदन सत्र के दौरान मोदी जी के साथ हुआ आत्मिक मुलाकात हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली पल था। उन्होंने अशीर्वाद दिया और कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र मल्लोशहर ही नहीं बल्कि आप पूरे पूर्वोत्तर में पार्टी को



मजबूत करने लिए लग जाओ और पूर्वोत्तर को सभी सीटों पर कर्मल खिला ल चाहिए। सांसद ने बताया कि सपा के पूर्व विधायक श्रीमती सुष्मा पटेल और गुलाब सरोज कपूर पहले से उनके सम्पर्क में थे और शीर्ष नेतृत्व से मिलकरके इन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाया गया और निश्चित रूप से इसका लाभ जनपद जौनपुर को सभी सीटों पर पार्टी को मिलेगा। उन्होंने पत्र प्रतिनिधियों को बताया कि मैं लगातार पांच साल क्षेत्र की जनता के बीच बना रहा और उनके सुख दुख का सहभागी रहा। सांसद ने पत्रकारों को बताया कि मैं प्रथममंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 56 सड़कें और PWD विभाग द्वारा छोटी बड़ी लगभग 500 सड़कें पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 245 करोड़ की लागत से निर्मित हूँ, लोकसभा में लगभग 400 अहमस्त सोलर लाइट और लगभग 2200 सोलर लाइट सांसद निधि से लगवाने का काम किया है। उन्होंने

बताया कि लोकसभा में अब तक असाध्य बिमारियों के तहत लगभग 400 लोगों के लिए शासन से आर्थिक सहयोग दिलाया का काम किया है, अभी हाल में ही जगन्नाथ रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 122 करोड़ राशि शासन से आवंटित करकर उसका सिलायास भी कर दिया और काम भी प्रारंभ हो गया। सांसद ने बताया कि सरकार गाँवों में खेल कूद का मैदान, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जलाशयों का निर्माण और प्रत्येक गाँव में हर घर जल योजना के अंतर्गत 22 साल से 3 से 4 करोड़ रुपया अलग से दिया जा रहा है, लोकसभा में कयी छोटे बड़े पूर्यों को स्वच्छ करवाया। मा. सांसद ने बताया कि मैं सदन समाप्त होते ही तुलु क्षेत्र में वापस आ जाता हूँ क्योंकि मुझे क्षेत्र की जनता से बड़ सहे और लगाव है और मैं तत्काल उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निस्तार करने के लिए सुबह से जनता को समस्याएँ सुनाकर उनके निस्तार का प्रयास करता हूँ। उन्होंने वार्ता के क्रम अपने लोकसभा और जौनपुर


# अधिवक्ताओं के लिए सदैव संघर्ष करता रहूंगा हरिशंकर सिंह एडवोकेट

सूरत भूमि, संवाददाता राजेश मौर्या, जौनपुर। मडियाहूँ जौनपुर अधिवक्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है अधिवक्ता भाइयों के सम्मान के साथ किसी से कोई समझौता नहीं। इसके साथ-साथ देश में कानून भी सर्वोपरि है और अधिवक्ता बंधुओं को भी अपनी गरिमा बनाए रखना चाहिए कोई ऐसा कार्य न करें जो उनके सम्मान के विपरित हो। उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि तहसील बार एसोसिएशन मडियाहूँ में शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए बार कार्डिनल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान सदस्य हरिशंकर सिंह ने कहा उन्होंने कहा कि कचहरी हमारी खोती बारी है हड़ताल हम तभी करते हैं जब हम पीड़ित होते हैं अधिवक्ताओं की समस्या के लिए सदैव मैं खड़ा मिलांगा। इसके पूर्व बतौर

विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार पांडे सदस्य बार कार्डिनल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा अधिवक्ता समाज के लिए संघर्ष करता है और उन्हें न्याय दिलाने का काम करता है सरकार को भी हमारी समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए और समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए बतौर विशिष्ट अतिथि मडियाहूँ क्षेत्र के विधायक डॉ आर के पटेल अपने संबोधन में कहा अधिवक्ता एवं चिकित्सक दोनों का पैसा करीब एक जैसा है कभी बिना पैसे वाले गरीब तबके के लोग भी इलाज और न्याय के लिए आते हैं उन्हें हम को इलाज करना पड़ता है और अधिवक्ता बंधु उनको न्याय दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की पीड़ा से अवागत हूँ अधिवक्ताओं के लिए एक भवन जो टीवी और ऐसी से युक्त होगा उसे बनना कर दूंगा। इसकी घोषणा किया। पूर्व में अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह महामंत्री सुरेंद्र

कुमार पटेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजेश कुमार उपाध्यय संयुक्त मंत्री गुजरात चौरसिया अनोस उल रहमान दिलीप गौड़ शिव कुमार यादव संतोष कुमार सिंह नीलेश यादव सहित अनेक पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शपथ दिलाया गया चुनाव अधिकारी राम लखन पटेल ने शपथ दिलाया। पूर्व में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत माल्यापण करके बुके देकर अंगवस्त्रम देकर तथा स्मृति चिन्ह देकर किया गया वाराणसी से आए अधिवक्ता विशाल सिंह संजय सिंह दाढ़ी का भी अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन सुरेंद्र प्रसाद सिंह एडवोकेट ने किया तथा अध्यक्षता बार के अध्यक्ष कंस राय यादव ने किया इस मौके पर बार के पूर्व महामंत्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी

अशोक कुमार उपाध्यय अशोक कुमार गुप्ता चंद्रेश यादव महेंद्र सिंह रंजेश चंद्र तिवारी बीएल यादव मोहन लाल यादव शिव संकर यादव तथा कृष्ण शर्मा सहित तमाम अधिवक्ताओं ने सदस्य अतिथियों का स्वागत किया।



## अमेरिकी सेना में घुसा चीन का जासूस, तलाश करने में लगी बाइडेन की आर्मी

न्यूयॉर्क चीन और अमेरिका के बीच की तनावित जग जगह है। अमेरिका की तरफ से चीन द्वारा जासूसी बेल्टन भेजे जाने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन की जासूसी का खतरा अमेरिकी सेना के अंदर तक पहुंच गया है। अमेरिकी सेना अपने रक्षा प्रणालियों की जांच कर रही है। वो इसमें छिपे चीनी मैलवेयर की खोज में लगे हैं। ये मैलवेयर पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सिस्टम में हो सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी वर्तमान में देश की रक्षा प्रणालियों के भीतर छिपे चीनी मैलवेयर की खोज कर रहे हैं, जो संभावित रूप से सैन्य संचार और पुनः आपूर्ति संचालन को बाधित कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शीघ्र चिंता यह बनी हुई है कि इस दुर्भावनापूर्ण कोड को बीजिंग द्वारा वाशिंगटन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे पावर ग्रिड, संचार प्रणाली और जल आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले नेटवर्क में छुपाया गया है जो सैन्य टिकानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसी चिंताएँ हैं कि संघर्ष की स्थिति में, हैकर्स अमेरिकी सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप करने के लिए इस मैलवेयर का फायदा उठा सकते हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव, विशेष रूप से ताइवान और भारत-प्रशांत में अपनी समुद्री सीमाओं का विस्तार करने की चीन की आक्रामक कार्रवाइयों ने इन साइबर सुरक्षा खतरों पर और अधिक चिंता बढ़ा दी है।

## ग्लेशियर पिघलने का नतीजा, 37 साल पहले गायब हुए पर्वतारोही का मिला शव

बर्न। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलने के नतीजे सामने आ रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार एक पर्वतारोही का 37 साल पुराना शव यहाँ मिला है। जिसे ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार हाल में स्विट्जरलैंड में एक हेरान करने वाली खोज हुई है। यहाँ 37 साल पहले गायब हुए एक जर्मन पर्वतारोही का शव रिवस आल्प्स की पहाड़ियों के एक पिघलते हुए ग्लेशियर में संरक्षित मिला। 12 जुलाई को स्विट्जरलैंड के जर्मेट के दक्षिण में थियोडुल ग्लेशियर पर पर्वतारोहियों ने पिघली हुई बाढ़ में मानव अवशेष को देखा। उन्होंने बाढ़ के बाहर एक जूता देखा, जिस पर पर्वतारोही की लें लगाते हैं। बाद में पर्वतारोहियों ने इसे बाहर निकाला जिसे स्विट्जरलैंड के नजदीकी शहर सायन के वेलस अस्पताल में फोरेंसिक मेडिसिन यूनिट में भेज दिया गया। डीएनए विश्लेषण के बाद वेलस पुलिस के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मिला हुआ शव एक 38 साल के पर्वतारोही का है, जो 1986 में पहाड़ पर लापता हो गया था। शोधकर्ताओं को यह घटना जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे बदलावों पर चिंताजनक प्रतीत की दिखाती है। ग्लेशियर लगातार चिंताजनक स्पीड के साथ पिघल रहे हैं। इसके कारण इनके अंदर छिपी चीजों को खोजना आसान होता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ग्लेशियरों के पिघलने के कारण उन पर्वतारोहियों के शव मिल रहे हैं, जिनके लापता होने की खबर दशकों पहले दर्ज कराई गई थी। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर देश की प्यास बुझाने में विशेष महत्व रखते हैं। सर्दियों के दौरान यह भारी मात्रा में वर्षा जमा करत हैं। गर्मी में यह जमी हुई वर्षा पिघल जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को ताजा साफ पानी पीने को मिलता है।

## श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह त्रिकोमाली में एनर्जी हब बनाने पहुंचा भारत का युद्धपोत

कोलंबो। श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह त्रिकोमाली में एनर्जी हब बनाने की कबायद के चलते भारत का युद्धपोत पहुंच गया है। इसके पहुंचने पर श्रीलंका ने जोरदार स्वागत किया है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस खंजर के त्रिकोमाली पहुंचने की तस्वीरें भी जारी की हैं। हालांकि इससे चीन और अमेरिका दोनों के मसूबों पर पानी फिर गया है। चीन के हाथों कंगाल होने के बाद अब श्रीलंका को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। इन्हीं उम्मीदों को लेकर श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस महीने भारत यात्रा पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी बैठक भी की थी। इस बैठक में आपसी संबंधों को मजबूत करने के अलावा श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह त्रिकोमाली में एक एनर्जी हब बनाने पर भी चर्चा हुई थी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि श्रीलंका ने भारत की दशकों पुरानी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि त्रिकोमाली वही बंदरगाह है, जिसे एक समय अमेरिकी सैन्य अड्डे के तौर पर देखा जाने लगा था। यहाँ की रेत में कई दुर्लभ खनिज पदार्थ भी छिपे हुए हैं। भारतीय नौसेना के मिसाइल कार्वेट आईएनएस खंजर के त्रिकोमाली पहुंचने पर श्रीलंकाई नौसेना ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों की नौसेना के बीच व्यावसायिक बातचीत, खेल कार्यक्रम और जहाज पर यात्रा निर्धारित है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस खंजर के त्रिकोमाली पहुंचने की तस्वीरें भी जारी की हैं। इसमें भारतीय युद्धपोत के कप्तान श्रीलंकाई नौसेना के अधिकारी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की भौगोलिक उपस्थिति हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चीन और अमेरिका दोनों ही श्रीलंका में अपना स्थायी नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत 1970 के दशक से ही श्रीलंका से त्रिकोमाली बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहा है। तब से लेकर अब तक भारत के कई नेताओं ने श्रीलंका के साथ त्रिकोमाली को लेकर चर्चा भी की है।

## चीन ने अंडमान से सिर्फ 1200 किमी दूर रीम नेवल बेस किया तैयार

नाम्पेह। चीन लगातार भारत के और करीब आता जा रहा है। ताजा जानकारी मिली है कि चीन ने कंबोडिया के रीम नेवल बेस को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि यह स्टैलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि रीम नेवल बेस पर बहुत बड़ी संख्या में इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। इसमें नौसैनिकों के रहने के लिए आवास, नई ऑफिस बिल्डिंग, एयर डिफेंस मिसाइल बेस, ड्राई डक और युद्धपोतों को ठहराने के लिए पहले से बड़ी जेटी शामिल हैं। रीम नेवल बेस को सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था, लेकिन 2019 में कंबोडियाई सरकार ने कर्ज के बदले इसे चीन को सौंप दिया था। यह नेवल बेस बंगाल की खाड़ी में मौजूद भारतीय सैन्य अड्डा अंडमान और निकोबार से सिर्फ 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में रीम नेवल बेस के विकास होने और चीनी नौसेना की मौजूदगी से हिंद महासागर में भारत की शक्ति भी बढ़ सकती है। हालांकि यह चार साल पहले अमेरिकी सुविधा विभाग ने पहली बार बताया था कि चीन और कंबोडिया के बीच रीम नौसैनिक अड्डे को लेकर करार हुआ है। तब से लेकर दुनियाभर के विश्लेषकों और सुविधा एजेंसियों ने इस सैन्य अड्डे के हर एक डेवलपमेंट पर करीबी निगाह रखी है। लेकिन अब मेक्सार टेक्नोलॉजीज की स्टैलाइट तस्वीरों से पता चला है कि थॉलेट की खाड़ी पर सिहानोकविले के पास कंबोडियाई नौसैनिक अड्डे में बड़े स्तर पर डेवलपमेंट हुआ है। चीन के पैसे से विकसित यह नौसैनिक अड्डा बीजिंग के सैन्य पहुंच को दक्षिण पूर्व एशिया के विवादाित जल क्षेत्रों तक बढ़ाएगा। इन नई स्टैलाइट तस्वीरों ने चीनी पैसे से विकसित रीम नौसैनिक अड्डे के विकास कार्यों का पूरा लेखा-जोखा दिया है। इसमें साफ और समतल जमीन, अधिक बड़े क्षेत्र में विस्तार, कई नई इमारतों और सड़कों का निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण पहलें मौजूद मूल जेटी की तुलना में अधिक बड़ी जेटी का निर्माण शामिल है। इस नौसैनिक अड्डे के चारों ओर नई बाड़ भी लगाई गई है। इसके अलावा अमेरिकी पैसे से बनी इमारतों को खस्त भी कर दिया गया है।

## चीनी मैलवेयर से अमेरिकी सेना परेशान, कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है धराशाथी

वाशिंगटन। चीन की जासूसी का खतरा एक मैलवेयर के जरिये अमेरिकी सेना के अंदर तक पहुंच गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी कई रक्षा प्रणालियों में छिपे चीनी मैलवेयर की तलाश कर रहे हैं, जो मिलिट्री संचार और आपूर्ति संचालन को बाधित कर सकते हैं। प्रशासन का मानना है कि खराबी पैदा करने वाले कंप्यूटर कोड मिलिट्री बेस के पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम और पानी सप्लाई को नियंत्रित करने वाले नेटवर्क के अंदर छिपा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस खोज से यह चिंता बढ़ गई है कि चीनी हैकर्स किसी भी युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य अभियानों को बाधित कर सकते हैं। गौरतलब है कि ताइवान के साथ-साथ इंडो-पैसिफिक में चीन की कार्रवाई को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के एक अधिकारी ने बताया कि मैलवेयर टिक-टिक तरह टाइम बॉम की तरह है, जो सैन्य टिकानों पर बिजली, पानी और कम्युनिकेशन में कटौती कर सकता है या उन्हें धीमा कर सकता है। इस मामले में अधिकारियों ने कहा कि मिलिट्री बेस कई बार उन्हीं बुनियादी ढांचों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आम नागरिक जुड़े होते हैं। ऐसे में अमेरिकी भी प्रभावित हो सकते हैं।



नाइजर में जुटा समर्थकों को हटाने आंस गैस के गोले दागते हुए सुरक्षाकर्मी।

## दुश्मन देश पर हमला करने पहुंचे भारत के रॉकेट, एक साथ 3 देशों के मोदी ने उड़ा दिए होश

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक साथ कई देशों को परेशान कर दिया है। भारत के एक कदम से तीन दुश्मन देश बर्बाद होने वाले हैं। भारत ने अपने वादे को पूरा करते हुए एक छोटे से देश अर्मेनिया को खतरनाक पिनका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दे दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान काफी खोफ में नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन वॉर से पहले अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध दुनिया ने देखा था। इस युद्ध में पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा था। जिसके बाद अर्मेनिया ने भारत के साथ दो हजर करोड़ का हथियार सौदा किया है। इसी के तहत भारत का पिनका अर्मेनिया में पहुंच गया है। अजरबैजान भारत से अर्मेनिया को हथियार देने का विरोध जाहिर कर रहा है।

भारत का प्रत्यक्ष रक्षा सौदा मल्टीबैरल रॉकेट सिस्टम पिनका जिसकी तुलना अमेरिकी हैमर्स से की जाती है। इसकी डिलीवरी अर्मेनिया को हो चुकी है। इस खबर से पाकिस्तान के टॉप फाइव दोस्तों में शामिल अजरबैजान को सबसे बड़ा सदस्य लगा है। अब अर्मेनिया पर किसी भी हमले का जवाब भारतीय मल्टीबैरल रॉकेट सिस्टम पिनका देगा। जिसका सीधा सा मतलब अर्मेनिया के दुश्मनों की तबाही होगी। अर्मेनिया लगातार अजरबैजान को



दुनियाभर के देशों से मिल रहे हथियारों की वजह से परेशान था। जिसके बाद उसने भारत के साथ 2 हजर करोड़ रूपए के हथियारों का सौदा किया था। इसी सौदे में शामिल पिनका की पहली खेप अर्मेनिया पहुंच चुकी है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी समय से जंग चल रही है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान की मदद से अर्मेनिया पर हमले कर रहा था। लेकिन अब भारत ने अर्मेनिया को आत्मरक्षा के लिए अपना खतरनाक पिनका रॉकेट सिस्टम दे दिया। भारत ने अर्मेनिया को जो पिनका रॉकेट सिस्टम बेजा है वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस तरह से भारत ने एक तीर से चार शिकार किए हैं। सबसे पहला तो भारत के हथियारों पर अब दुनिया को भरोसा हो रहा है। वहीं दूसरा, तीसरा और चौथा शिकार अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की हैं। ये तीनों ही देश भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अपना एजेंडा चलाते हैं। लेकिन अर्मेनिया की मदद करके भारत ने तीनों को एक साथ जवाब दिया है।

## शहबाज शरीफ ने किया साफ, पीएमएल-एन के सत्ता में लौटने पर भाई नवाज ही होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बित मंत्री इशाक डार की नियुक्ति की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि आगामी आम चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए अगले महीने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक तटस्थ व्यक्ति का चयन किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने संकेत दिया कि 2019 से लंदन में स्व-निर्वासित निर्वासन में रह रहे तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो 73 वर्षीय पीएमएल-एन सुप्रीमो प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने जियो न्यूज को बताया कि नेशनल असेंबली (एनए) के विद्युत की अधिसूचना संसद के निचले सदन का कार्यकाल पूरा होने से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति अरिफ अल्वी को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनए 12 अगस्त को रात 12 बजे अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों, पीएमएल-एन के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता राजा रियाज के साथ परामर्श के बाद कार्यवाहक व्यवस्था पर सहमत होंगे।

## बीजिंग में भारी बारिश का कहर, खिलौनों की तरह बह गई दर्जनों गाड़ियां

बीजिंग (एजेंसी)। चीन में इन दिनों भयानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए आपातकालीन सेवाएं बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। प्राण जानकारी के अनुसार चीन की सरकार ने राजधानी बीजिंग और चीन के अन्य क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों से कहा कि वे टाइटन डेक्स के कारण हुई भारी बारिश के बीच बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहें। बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों ने बीजिंग, तियानजिन, हेबेई, शान्सी और हेनान प्रांतों के लिए अपने इमरजेंसी रिसर्चस ऑर्डर को लेवल-2 पर अपग्रेड कर दिया। इस बीच चीन से बाढ़ का एक भयानक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दर्जनों गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहती नजर आ रही हैं। चीन के मीडिया ने यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में पानी का तेज बहाव अपने

साथ कई गाड़ियों को धकेलता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पश्चिमी बीजिंग उमरगों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। कुछ निवासी ऊंची जगहों पर रस्खों का इंतजार कर रहे हैं, कों बाढ़ के पानी में बह रही है। इश्कैफिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा रिवार को दोपहर 3 बजे तक 52 उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं चाइना सेंट्रल टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार, तियानजिन एयरपोर्ट ने सुबह 10 बजे तक 42 उड़ानें रद्द कर दीं। रेल अधिकारियों ने कहा कि बीजिंग और गुआंगजो के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों में थोड़ी देरी हुई क्योंकि भारी बारिश के कारण लाइन के कुछ हिस्सों की जांच की जा रही थी। वहीं इस साल के पांचवें तूफान डेक्सुरी ने पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में दस्तक दी थी जिससे तेज हवाएं और भारी बारिश हुई थी।

## जेयूआई-एफ के कार्यकर्ताओं पर आत्मघाती विस्फोट में आईएस आतंकवादी का हाथ

### पाकिस्तान की पुलिस ने जताया शक, आत्मघाती हमले में 46 लोगों की चली गई थी जान

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान की पुलिस ने आत्मघाती विस्फोट में आईएस आतंकवादी संगठन का हाथ होने की आशंका जताई है। इस मामले में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस ने सोमवार को कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बाजौर में जमीयत उल्ला इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के कार्यकर्ताओं पर आत्मघाती विस्फोट के पीछे इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादी समूह का हाथ था। बता दें कि इसमें 46 लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिवार को अफगानिस्तान की सीमा से लगे पूर्व कबाली इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने रेलों में विस्फोट विस्फोट कर दिया, इसमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए।

जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) नजीर खान ने कहा, बाजौर और आसपास के इलाकों के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया, जहां ज्यादातर घायलों को ले जाया गया था। गंभीर रूप से घायलों को सैन्य हेलीकॉप्टरों द्वारा बाजौर से पेशावर के अस्पतालों में ले जाया गया। यहां की पुलिस ने कहा कि हम अभी भी बाजौर विस्फोट की जांच कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि प्रतिबंधित संगठन दाएश इसमें शामिल था। डीपीओ खान ने बताया कि तीन सौ हथियारों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि पिछले साल तहरीक-ए-तलिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और इस्लामाबाद के बीच युद्धविराम टूटने के बाद से पाकिस्तान में चरमपंथियों के हमलों में फिर से बढ़ाव देखा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में पेशावर में एक मस्जिद में हुए बम विस्फोट में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई

## सऊदी अरब में होगी यूक्रेन पर बैटक, भारत सहित 30 देश होंगे शामिल

दुबई। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच सऊदी अरब अगस्त की शुरुआत में एक शांति वार्ता की मेजबानी करेगा, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बहरहाल सऊदी अरब और यूक्रेन ने अभी इस वार्ता की पुष्टि नहीं की है। अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि शिखर वार्ता लाल सागर के बंदरगाह शहर जेद्दा में होगी। उन्होंने बताया कि शिखर वार्ता में यूक्रेन के साथ ही ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देश हिस्सा लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के एक उच्च स्तरीय अधिकारी के भी बैटक में शामिल होने की संभावना है। अधिकारी के मुताबिक, इस आयोजन की तैयारियां यूक्रेन संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के वार्ता में भाग लेने की संभावना नहीं है। शांति वार्ता पांच-छह अगस्त को होगी और लगभग 30 देश हिस्सा लेंगे। अभी सऊदी अरब के अधिकारियों और रियाद में यूक्रेनी दूतावास ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। इस शिखर वार्ता की खबर ऐसे वक्त में आई है, जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा की थी। अधिकारियों ने कहा कि जून में हुई बातचीत के बाद यह शिखर सम्मेलन अगला कदम है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से ही दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई है। एक धड़ा ऐसा है जो सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों के साथ-साथ राजनीतिक मदद भी दे रहे हैं। ईरान सीरिया और बेलारूस जैसे देश तो सीधे तौर पर रूस की मदद कर रहे हैं। वहीं एक धड़ा ऐसा है जो न्युट्रल है। ज्यादातर अरब देश न्युट्रल ही रहे हैं। ओपेक लस का सदस्य होने के कारण रूस और सऊदी करीब हैं।

## जेलेंस्की का जंग के 522 दिन बाद बड़ा बयान...युद्ध धीरे-धीरे रूस में लौट रहा



कीव (एजेंसी)। क्रेमलिन द्वारा कीव पर ड्रोन से मारकों को टारगेट करने के आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध धीरे-धीरे रूस में लौट रहा है। एक वीडियो संबोधन में, जेलेंस्की ने कहा, आज विशेष सैन्य अभियान का 522वां दिन है, जिसके बारे में रूसी नेतृत्व ने सोचा था कि यह कुछ सप्ताह तक चलेगा। युद्ध धीरे-धीरे रूस के क्षेत्र में लौट रहा है। इसके प्रतीकात्मक केंद्रों और सैन्य अड्डों पर, और यह एक अपरिहार्य, प्राकृतिक और उचित प्रक्रिया है। रूस अपने आक्रमण को विशेष सैन्य अभियान कहता है।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तीन ड्रोन रोके गए, लेकिन राजधानी के पश्चिम में एक व्यापारिक और खरीदारी विकास प्रभावित हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 मॉजिला इमारत की पांचवीं और छठी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई और किसी के हानाहत होने की खबर नहीं है। वीडियो में घटनास्थल पर मलबे के साथ-साथ

आपातकालीन सेवाएं भी दिवबाद दे रही हैं। यूक्रेनी वायु सेना के प्रबन्धन ने कहा कि रूसों को प्रवाहित करना था, जिन्हें लगता था कि युद्ध दूर है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, रूस के साथ-साथ मॉस्को में भी हमेशा कुछ न कुछ उड़ता रहता है। अब युद्ध उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो चिंतित नहीं थे। यूक्रेनी मंत्री मायखाइलो फेडोरोव ने कहा कि कीव में गर्मियों में जवाबी कार्रवाई तब तक के कारण और अधिक ड्रोन हमले हो सकते हैं, इसका उद्देश्य रूसी सैनिकों को यूक्रेनी क्षेत्र से बाहर धकेलना है। यूक्रेन ने 24 जुलाई को रूसी रक्षा मंत्रालय को बताया कि तीन सौ हथियारों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि पिछले साल तहरीक-ए-तलिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और इस्लामाबाद के बीच युद्धविराम टूटने के बाद से पाकिस्तान में चरमपंथियों के हमलों में फिर से बढ़ाव देखा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में पेशावर में एक मस्जिद में हुए बम विस्फोट में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई

## चीन की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल में...लगातार चौथे महीने पीएमआई में गिरावट

बीजिंग (एजेंसी)। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन को आर्थिक मोर्चे पर फिर हारका लगा है। जुलाई में देश में फैक्ट्री गतिविधियों में फिर गिरावट आई है। लगातार चौथे महीने चीन में फैक्ट्री कामकाज में गिरावट आई है। चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती से बाहर नहीं निकल पा रही है, और एकसंपाट में भी भारी कमी आई है। चीन की सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। वहीं अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं। इन देशों की कई कंपनियां भारत सहित दूसरे देशों में टिकना तलाश रही हैं। इस कारण देश में उत्पादन में कमी आई है। सोमवार को जारी आधिकारिक मैन्युफैक्चरिंग प्रचेजिंग इंडेक्स (पीएमआई)

49.3 रहा। अगर यह 50 से कम रहता है, तब इसके ट्रान्ज़िशन माना जाता है। हालांकि जुलाई में पीएमआई जून के मुकाबले मामूली रूप से बेहतर रहा। जून में देश का पीएमआई 49.0 रहा था। हालांकि नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (एनबीएस) के झाओ किंगदे के मुताबिक पीएमआई में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। चीनी सरकार अपनी ग्राथ को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि देश में उपभोक्ता खर्च में भारी कमी आई है। देश में नॉन-मेन्यूफैक्चरिंग पीएमआई भी जुलाई में गिरकर 51.5 रह गई जो जून में 53.2 था। यह सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बिजनेस सेटिमेंट बताता है। इससे साफ है कि चीन में कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट गतिविधियों में भी कमी आई है।

हाल में चीन को आर्थिक मोर्चे पर हर तरफ से निराशा ही झटका लगी है। दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था 6.3 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी जबकि आर्थिक जानकार इसके 7.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद कर रहे थे। खपत में सुस्ती, रियल एस्टेट सेक्टर में संकट और डिफ्लेशन में भारी कमी आ गई है। चीन को लंबे समय से दुनिया की वर्कशॉप माना जाता है। देश काफी हद तक एक्सपोर्ट पर निर्भर है। लेकिन हाल में उसके एक्सपोर्ट में भारी कमी आई है। अमेरिका और यूरोप में मंदी का खतरा और महंगाई बढ़ने से



दुनियाभर में चीन के सामान की डिमांड कम हो रही है। इसके साथ ही डिमांड में कमी चीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देश को इससे बाहर निकालने के लिए सरकार ने नए

उपायों की घोषणा की है। सोमवार को सरकार ने खपत बढ़ाने के लिए 20 सूत्री प्लान की घोषणा की।

# गुजरात के बाद क्या अब मणिपुर बनेगा भाजपा का विकास मॉडल?



तनवीर जाफरी

प्रधानमंत्री बनने से पहले गोरखपुर में एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। और मोदी उसी गुजरात का विज्ञापन विकास मॉडल के रूप में भी करते थे जोकि गोधरा काण्ड और उसके बाद भड़के अल्पसंख्यक विरोधी दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारक बना। पिछले दिनों प्रसिद्ध पत्रकार कारन थापर ने मणिपुर के दक्षिणपंथी मैतेई नेता प्रमोद सिंह से बातचीत की जिसमें उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि -कुकी-जो आदिवासी समुदाय है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि वे हमारा रास्ता रोकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें सरकार और पुलिस का समर्थन हासिल है।

पूर्वोक्त के राज्य मणिपुर में गत 3 मई से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा अभी भी जारी है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अब तक प्रदेश में हिंसा की घटनाओं में अब तक 200 से अधिक जानें गई हैं, जबकि 50,000 से अधिक लोगों के विस्थापित होने की खबरें हैं। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के बीच ही मणिपुर हिंसा का मुद्दा यूरोपीय संसद में भी उठ चुका है। यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा को लेकर बहस की थी तथा भारत की कड़ी आलोचना की थी। हालांकि भारत ने इसे अंदरूनी मामला बताकर यूरोपीय संसद की आलोचना खारिज कर दी थी। मणिपुर हिंसा ने पूरे देश में उस समय और भी आक्रोश पैदा किया जबकि गत 19 जुलाई को कुकी समुदाय की दो महिलाओं को मेतीय समुदाय के युवकों की भीड़ द्वारा निर्वसत्र कर घुमाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। खबर यह भी है कि इन महिलाओं को निर्वसत्र घुमाने से पूर्व इनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था। हालांकि यह शर्मनाक अमानवीय घटना 4 मई की बताई जा रही है। परन्तु राज्य में इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध के चलते यह वीडियो देर से सार्वजनिक हुई। मणिपुर की घटना कितनी भयावह व अमानवीय है इसके लिये इसे किसी राजनैतिक बयानबाजी या विपक्ष के चश्मे या उस नजरिये से देखने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि इस निरंतर हो रही हिंसक घटना से प्रभावित होकर भाजपा द्वारा ही मणिपुर में नियुक्त राज्यपाल अनुसुइया उइके ने क्या कहा यह समझना भी जरूरी है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने गत दिनों एक टी वी चैनल से बातचीत में कहा कि -मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा से लोग डरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, ऐसी हिंसा मैने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखी। यहां दो समुदायों में काफी समस्या है जब तक इन मसलों को सुलझाया नहीं जाता तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। आपस में जब तक बातचीत नहीं होती तब तक यहां शांति बहाल होना मुश्किल लगता है। मणिपुर के राज्यपाल ने कहा कि यहां के लोगों के दुख और दर्द को देखती हूं तो मुझे काफी तकलीफ होती। लोग मुझसे पूछते हैं कि कब शांति बहाल होगी कई महीने से घर के घर जल रहे हैं और जल गए हैं कई लोग मारे गए हैं। आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? मणिपुर की घटना का प्रभाव अब भाजपा में ही राज्यपाल के बाद विरोध स्वरों के रूप में अन्य राज्यों में भी नजर



आने लगा है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में भाजपा के उपाध्यक्ष आर वनरामचुआंगा ने भाजपा की मिजोरम इकाई के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस हिंसा को लेकर मणिपुर और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा जा रहा है कि आर वनरामचुआंगा के इस्तीफे का कारण मणिपुर में चर्चों पर लगातार हो रहा हमला है। अपने त्याग पत्र में, वनरामचुआंगा ने यह कहा भी है कि -मणिपुर और केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्य मणिपुर में चर्चों के विध्वंस का समर्थन किया। उन्होंने त्यागपत्र में लिखा, ईसाइयों और ईसाई धर्म के प्रति आपराधिक अन्याय के इस कृत्य के विरोध में, मैं तत्काल प्रभाव से भाजपा मिजोरम प्रदेश के राज्य उपाध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा सौंपता हूं। उन्होंने यह भी दावा किया कि 3 मई से राज्य में जातीय संघर्ष के दौरान पूरे मणिपुर में 357 चर्चों को मैतेई उग्रवादियों ने जलाकर राख कर दिया। इसी तरह बिहार में भी भाजपा को एक बड़ा झटका देते हुये भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने पार्टी के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया

है। इस बात की जानकारी एक पोस्टर के माध्यम से देते हुये विनोद शर्मा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर उन्होंने इसका जिम्मेदार केंद्र व राज्य सरकार को ठहराया। पटना के प्रमुख चौराहों पर लागवाये गये उनके इस्तीफे से संबंधित तमाम बोर्ड व पोस्टर पर लिखा है - भारत की बहन, बेटियां करे चौत्कार-शर्म करो, बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार। मान्यवर जे पी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, मान्यवर, मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न कर भीड़ में सड़कों पर घुमाए जाने के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है। जिसके लिए मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री बीरन सिंह पूर्ण जिम्मेदार हैं और इसका बचाव करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे नेतृत्व में काम करते हुए मैं आत्मग्लानि एवं कलंकित महसूस कर रहा हूं। इसलिए तत्काल पार्टी के पदों और पार्टी से इस्तीफा देता हूं उपरोक्त बयानों व आरोपों में से कोई भी बात न तो कांग्रेस नेताओं द्वारा की गयी न ही विपक्ष या नव गठित क. ठ. ऊ. क. अ. द्वारा। फिर आखिर सत्तारूढ़ भाजपा और उसके नेता

मणिपुर की घटना का राजनैतिक लाभ उठाने का आरोप विपक्ष पर क्यों और कैसे लगा रहे हैं? भाजपा के कितने ही मंत्रियों सांसदों कार्यालयों व नेताओं के घर मणिपुर हिंसा में फूँक दिये गये? और संसद के मानसून सत्र की शुरूआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे तो उन्होंने कहा, मणिपुर की घटना से मेरा हृदय दुख से भरा है। ये घटना शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले कितने हैं, कौन हैं वो अपनी जगह है, पर बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूँ कि वो मां-बहनों की रक्षा के लिए कदम उठाएँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, घटना चाहे किसी भी राज्य की हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, नारी के सम्मान के लिए राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद तो देश में और भी उबाल आ गया। प्रधानमंत्री का इशारा पाकर जहाँ भाजपा के स्मृति ईशाना जैसे अनेक नेता मणिपुर की घटना के साथ राजस्थान व छत्तीसगढ़ की तुलना करने लगे वहीं विपक्ष ने इसे पूर्णतः राजनैतिक बयान बताया। विपक्ष का कहना है कि राजस्थान व छत्तीसगढ़ की किसी भी घटना से मणिपुर की तुलना नहीं की जा सकती। I. N. D. I. A. ने भी अपना एक 20 सदस्यीय दल मणिपुर भेजा।

दरअसल प्रधानमंत्री बनने से पहले गोरखपुर में एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। और मोदी उसी गुजरात का विज्ञापन विकास मॉडल के रूप में भी करते थे जोकि गोधरा काण्ड और उसके बाद भड़के अल्पसंख्यक विरोधी दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारक बना। पिछले दिनों प्रसिद्ध पत्रकार कारन थापर ने मणिपुर के दक्षिणपंथी मैतेई नेता प्रमोद सिंह से बातचीत की जिसमें उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि -कुकी-जो आदिवासी समुदाय है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि वे हमारा रास्ता रोकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें सरकार और पुलिस का समर्थन हासिल है। और वे हमसे बच नहीं सकते। सवाल यह है कि मणिपुर में क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है? शाब्द तभी विशेषक मणिपुर की हिंसक घटना की तुलना गुजरात दंगों की तरह करने व इसे सुजयोजित साजिश बताने लगे हैं? तो क्या गुजरात के बाद अब मणिपुर बनेगा भाजपा का कथित विकास मॉडल?

## संपादकीय

### कर्ज बना रहा है देश और राज्यों को कंगाल, कब जागोगे देश के सच्चे पहरेदार

अगर आपके घर पर कर्ज हो तो आपको नौद नहीं आती तो राज्यों और देश पर इतना कर्ज होने पर नेता चेन की नौद कैसे सोते है।

आज धीरे धीरे दुनिया के सभी देश तरकी कर रहे है तो हमारा प्यारा भारत कैसे पीछे रहे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है के तरकी के सही मायने क्या होते है कभी समझा है। जी हा आप पढ़ते पढ़ते ये सोचते होंगे के हमे पता है जैसे हम घरमे तरकी की परिभाषा तय करते है वैसे ही। जी बिलकुल जब भी आप तरकी के बारे में सोचेंगे तब आपको अपने हिसाब से कुछ न कुछ अंक के बारे में ही सोचेंगे और वो अंक आपके प्रॉफिट लॉस या तो बेलेंस शीट पर आधार रखेगा। अंत में यह तय है की आंकड़े ही बोलते है और सचाई बया करते है।।

तो आज हम जानेंगे के देश के हर एक राज्यों ने 2005 से लेकर अभी तक कितना कर्ज बढ़ाया है उसके आकड़े आपको कहा से मिलेंगे और उससे आप अपने राज्य के एक नागरिक होने के नाती उसका लेखा जोखा कर सत्य जान सकेंगे।।।

हम बात करे पहले तो यह आंकड़े आरबीआई की साइट पर से स्टेटमेंट 19 के तहत आते है जिसकी लिंक <https://m.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=20869>

यह है और अब हम जानेंगे के राज्यों का ग्राफ कैसे कर्ज में बढ़ गया इसमें 2022 तक के आंकड़े रखे गए है जो 2022 का बजेट एस्टीमेट आंकड़ा है लेकिन उससे ज्यादा ही। कर्ज होने की संभावना है तो आज जानिए आपका राज्य कहा पर है।

पूरे देश के राज्यों को मिलाया जाए तो कुल कर्ज 2005 में 1,014,066.5 करोड़ से 6,947,045.1 करोड़ तक यानीकी पिछले 17 सालों में कर्ज में 7 गुना तक बढ़ोतरी आई है। यह आंकड़े बहुत चौकाने वाले है और देश के भविष्य को कभी भी बेच सकते हैं। इसमें अभी देश से लिया कर्जा सामिल नहीं है। अब यह सोचने वाली बात है के बीते 15 सालों में देश में टेक्स से लेकर सारे दंड और सभी सरकारी आय में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी कर्ज क्यू बढ़ रहा है यह कैसे कहा जा रहे है।


अगर आप सच्चे भारतीय है और भारत को एक कुटुंब की तरह मानते है तो सोचे की आपके कुटुंब के ऊपर इतना कर्ज हो तो आपको नौद कैसे आपगी जो इसके करता धर्ता है यानी की नेता और पक्ष इनकी क्या जिम्मेवारी है? क्या वो सही अर्थ में देश के पहरेदार हैं? सच्चे पहरेदार तो वो है जो देश का 1 रुपिया भी गलत न होने दे। और बड़े सयाने भी कह गए है की बेटा कुछ भी करना पर कुछ भी ही जाए अपने पर कर्ज मत करना? और यहां तो हर राज्य में कर्ज करने की होड़ लगी है। और यह कर्ज का सीधा उसूल है जब लेनदार घर पर आते है तब सही कर्ज का पता चलता है। काश यह पढ़के देश के नेताओं और अच्छे और देश को सही राह पे लेजाने वाले नेता और पक्ष का जमीर जाग जाए और वह कर्ज के बारे में सोचने लगे और यह कर्ज आने वाले सालों में कर्म हो ऐसी आकांक्षा।

वरना पहरेदार, चौकीदार, इंडिया, भारत और जो भी नाम दो सब यह कर्ज तले दबे होंगे।



लेखक: प्रतिक संघवी राजकोट गुजरात

## विधानसभा चुनाव, बंटोधार-करफ़ान नाथ, भ्रष्टाचार एवं घोटाले के नाम पर



सनत जैन

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तरकश से तीर निकालना शुरू कर दिए हैं। चुनावी रण के लिए चक्रव्यूह की रचना भी शुरू हो गई है। 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, हर मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह इंदौर पहुंचे। उन्होंने विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए, विपक्षी दल कांग्रेस पर अपने तरकश से तीर छोड़े। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को करफ़ान नाथ बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बंटोधार बताते हुए, अमित शाह ने प्रश्न किया जब कांग्रेस 2003 में सत्ता छोड़कर गई थी। तब भाजपा सरकार को कितना बजट सौंप कर गए थे। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा, कि वह सरकार छोड़कर बाहर गए थे। तब 23000 करोड़ का बजट मध्यप्रदेश का था। 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3,14,000 करोड़ का बजट पेश किया। अमित शाह ने मालवा की धरती से चुनावी बिगुल बजा दिया है।



वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव को एक नई रणनीति के तहत लड़ने जा रही है। कर्नाटक विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा था। इसके अलावा हिंदुत्व के मुद्दे पर भी कर्नाटक में कांग्रेस ने नई तरीके की आक्रमक होकर लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस कर्नाटक का चुनावी मॉडल, मध्यप्रदेश में लेकर आई है। निश्चित रूप से कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भाजपा को घेरने के लिए भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा सरकार को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी

इंदौर की सभा के बाद महादेव का जलाभिषेक किया। भगवान राम और बजरंगबली का सहारा लेकर भक्ति के साथ कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भगवानों के लिए भी बड़ा धर्म संकट उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। वह अपने किस भक्त के साथ जाकर खड़े हों। कांग्रेस और भाजपा विधानसभा चुनाव के मुकामले में बराबरी पर आकर खड़ी है। कोई भी पक्ष किसी से कम नजर नहीं आ रहा है। भाजपा को भ्रष्टाचार, घोटाले, कमीशन खोरी के आरोप में घेरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संसदीय क्षेत्र में बोगेश्वर धाम का एक बड़ा आयोजन कमलनाथ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तरकश के लिए जो तीर तैयार किए हैं। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी सेनाओं को

एकजुट कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में बगावत की जो आशंका थी। उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। टिकट वितरण का पैटर्न मध्यप्रदेश में भाजपा का बदला हुआ होगा। भाजपा में उन नेताओं को टिकट भी मिलेगी, जो 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके होंगे। जो स्वयं चुनाव जीतने और अन्य विधानसभा सीटों को जीतने का सामर्थ्य, जिन नेताओं का होगा। ऐसे नेताओं को भाजपा में अब रिटायर नहीं किया जाएगा। प्रभावशील भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के परिवार जन को भी टिकट देकर उनकी राजनैतिक ताकत का लाभ इस चुनाव में उठाने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। भाजपा की संगठन क्षमता मैदानी स्तर पर कांग्रेस से बहुत बेहतर है। कांग्रेस इस मामले में भाजपा का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं, कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण की सेना शामिल थी। युद्ध भूमि में सैन्य बल कौरवों के पास ज्यादा था। कौरवों के पास बड़े-बड़े योद्धा भी थे। रणभूमि में पांडवों के सारथी बनकर भगवान कृष्ण पांडवों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। कांग्रेस को विश्वास है, कि 20 साल के भाजपा के कुशासन का अंत करने के लिए, कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर रही है। उसके साथ जनता जनानंद चुनाव मैदान में खड़ी होगी। कांग्रेस धर्म की लड़ाई लड़ रही है। 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अहंकार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेसी मानते हैं कि जनता की लड़ाई में वह जीत हासिल करेगी। यह लोकतंत्र का धर्म युद्ध है। वहीं भाजपा भी इस लड़ाई में कहीं पीछे नहीं है। दोनों ही योद्धाओं में बराबरी की टक्कर वर्तमान में देखने को मिल रही है।

## वर्ल्ड वाइड वेब दिवस: जीवन का अभिन्न अंग बन गया है वर्ल्ड वाइड वेब



योगेश कुमार गोयल

इंटरनेट ज्ञान और मनोरंजन का ऐसा खजाना है, जिसके माध्यम से किसी एक कोने में बैठे हुए ही आप दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट के माध्यम से विश्वभर की हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को एक छोटे से बंद कमरे में रखे कम्प्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर समेटकर ला देने वाला मूल मंत्र हहह (वर्ल्ड वाइड वेब) आज हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। यही शब्द प्रतिदिन दुनियाभर में करोड़ों कम्प्यूटरों पर असंख्य बार टाइप किया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' नामक इंटरनेट की मायावी दुनिया में प्रवेश कराने वाली यह खिड़की कब और कैसे अस्तित्व में आई? वर्ष 1989 में 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' नामक इस मायावी शब्द को जन्म दिया था ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उस दौरान वह एक कम्प्यूटर पर मौजूद अपने दस्तवेजों और फाइलों को खोलने के लिए कुछ खास कोड नंबरों का प्रयोग किया करते थे और उनका यह तरीका कम्प्यूटर पर सफलतापूर्वक काम भी करता था किन्तु उन्होंने इससे भी आगे कुछ करने की ठानी थी।



दरअसल बर्नर्स ली एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट बनाया चाहते थे, जिसकी मदद से दुनिया के सभी कम्प्यूटरों को एक व्यापक सूचना तंत्र द्वारा जोड़ा जा सके और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली। वह इंटरनेट के जरिये दुनियाभर के लोगों को सूचनाओं के एक विस्तृत नेटवर्क से जोड़ पाने में सफल हुए। इस तरह इंटरनेट पर 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' की शुरूआत 1991 में हुई। टिम बर्नर्स-ली को एक इंटरनेट-आधारित संचार प्रणाली विकसित करने में उनकी रचनात्मकता के लिए सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को 'वर्ल्ड वाइड वेब दिवस' मनाया जाता है। 1993 में इंटरनेट पर 'टेक्सट' के साथ-साथ पिक्चर्स व ग्राफिक्स का प्रसारण भी शुरू हो गया, जिससे धीरे-धीरे इसकी

लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो गई और आज इंटरनेट की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या आज दुनिया भर में करोड़ों में है। इस बात से आज हर कोई परिचित है कि इंटरनेट ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है पर आपको यह खजाना खोजना भी तो आना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ही विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के असंख्य पृष्ठ भरे पड़े हैं, यदि आपको उनमें से अपने मतलब की जानकारी खोजने का तरीका ही मालूम नहीं हो तो आपके लिए यह सब किस काम के?

मान लिया जाए कि जिस विषय पर आपको किसी जानकारी की आवश्यकता है, उससे संबंधित कुछ वेबसाइटों की आपको जानकारी भी है लेकिन यदि उन वेबसाइटों पर आपके मतलब की जानकारी न मिले, तब आप क्या करेंगे? आपको इसी मुश्किल को आसानी से अपने अपने मतलब की जानकारी खोजने का तरीका ही मालूम नहीं हो तो आपके लिए यह सब किस काम के? जिस भी विषय के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, इंटरनेट सच इंजन के टूल बार में उसका नाम टाइप करने के बाद एक क्लिक करते ही यह उस विषय से संबंधित ट्रेजें पेंज आपके सामने खुल जाते हैं और इस तरह आप अपनी जरूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं। जब भी आप सच इंजन में कोई शब्द या वाक्य टाइप कर उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो सच इंजन उस शब्द या वाक्य से संबंधित पृष्ठों की एक विस्तृत सूची बनाकर आपके सामने लाकर रख देता है, जिसमें से आप अपनी जरूरत की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल सच इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है, जो विभिन्न प्रोग्राम्स के तहत कार्य करता है और इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेबसाइटों के लाखों-करोड़ों पृष्ठों को अपने-अपने समेटे इकट्ठा करता है।



## पति को कराएं बच्चे की जिम्मेदारी का अहसास

एक मां ही यह बता सकती है कि पेरेंटिंग का अनुभव कितना आनंददायक होता है। अक्सर पुरुष इसे बहुत भारी जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं और शुरू से उन्हें यह लगता है कि बच्चे का पालन-पोषण मां की जिम्मेदारी होती है।

बच्चे को सही परवरिश देना मां और पिता दोनों का काम होता है, पर बच्चे की परवरिश का जिम्मा मां पर ही आता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति को भी बच्चे की जिम्मेदारी का अहसास हो तो इन बातों का ध्यान रखें।

**बताएं आप उनकी मदद लेना चाहती हैं**

बच्चा होने के बाद कुछ पुरुष यह चाहते हैं कि वो बच्चे की देखभाल करें, पर महिलाएं अक्सर इस संकोच में कि बच्चे का काम पति सही ढंग से कर पाएंगे या नहीं, सोच उनकी मना कर देती हैं। अगर आपके पति बच्चे के पालन-पोषण में आपकी मदद करना चाहते हैं तो उनका यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लें। उन्हें अपने तरीके से बच्चों की केयर करने दें, हर समय टोकें न, अगर वो कहीं गलत है, तो उन्हें प्यार से बताएं।

**भूमिका आनंददायक है**

एक मां ही यह बता सकती है कि पेरेंटिंग का अनुभव कितना



आनंददायक होता है। अक्सर पुरुष इसे बहुत भारी जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं और शुरू से उन्हें यह लगता है कि बच्चे का पालन-पोषण मां की जिम्मेदारी होती है। आप उन्हें बताएं कि एक बच्चे की देखभाल करने में जिम्मेदारी तो है, पर इसमें आनंद भी खूब है। बच्चा जब छोटी-छोटी हरकतें करता है तो उन्हें देखने में कितना मजा आता है। इस तरह की बातें जब आप उनसे शेयर करेंगी तो वो खुद ब खुद इसमें रूचि दिखाने लगेंगे।

**गुप बनाएं पिता भी**

पुरुष अक्सर बच्चों के बारे में बात करने से बचते हैं। महिलाएं तो कई बार गुप में जाकर बच्चों की परेशानियां, आदतें आदि के बारे में चर्चा कर लेती हैं, पर पिता को ऐसा नहीं करते। आप पति को प्रोत्साहित करें कि वो फेसबुक, ब्लॉग, फ्रेंड सर्कल में पिताओं के गुप में शामिल हों। इससे वो सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, साथ ही अन्य पुरुषों से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और उनके अनुभव से सीख सकते हैं।

**प्राथमिकता निर्धारित कर उनसे सहयोग मांगें**

मां होने के नाते आप प्राथमिकता तय कर लें कि किन-किन बातों में आपको अपने पति की जरूरत पड़ सकती है। यह निर्धारित करने के बाद आप उन्हें बताएं कि आपके उनके सहयोग की कितनी जरूरत है। ऐसा करने से आप एक अच्छे वक्त एक-दूसरे के साथ बिता सकते हैं।

**यादों को रखें सहेज कर**

आप अपने पति से पूछें कि फादरहुड के दौरान वो कौन-सी पांच बातें थीं, जिनसे उन्हें बेहद खुशी मिली। आप उन सारी बातों को एक छोटी-सी नोटबुक में नोट करें। अगर उससे जुड़ी फोटो आपको पास है तो उसे भी चिपकाएं, ऐसा करने से आप इन छोटी-छोटी और प्यारी बातों को ताज़म सहेज कर रख सकेंगी।

करती रहेंगी।

अपने शरीर को पसंद और नापसंद करना आपके हाथों में है। वर्तमान में आपकी बाँधी किसी भी शैप में हो, अब से आप उस पर फ़ख़ करेंगी। यह अलग बात है कि अगर आपका वजन कुछ ज्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करेंगी, पर अपने शरीर को लेकर सकारात्मक सोच को खत्म बिल्कुल नहीं करेंगी और उसे अच्छा ही मानेगी।

आप हमेशा यह मानेंगी कि आप दिल, दिमाग और शरीर तीनों से बेहद खूबसूरत हैं। भले ही आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, आप उसकी बात का बुरा नहीं मानेंगी। अगर आप ऐसा सोचेंगी तो सच मानिए, आप गॉर्जियस दिखेंगी।

एक प्यारी मुस्कुराहट लोगों का ध्यान हमेशा आकर्षित करती है और चेहरे पर भी नूर लाती है। इसलिए अब से चेहरे पर हमेशा तनाव लाने की बजाय मुस्कुराहट बनाए रखेंगी। एक प्यारी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर चार चांद लगा देगी।

अगर आपके बाल हेल्दी या फिर त्वचा का टोन अच्छा है तो उस पर नाज करेंगी। अपनी कमी को देखकर दुखी नहीं होंगी। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनमें रूसी है तो उन्हें देख-देखकर चिन्हेगी नहीं, इन्हें दूर करने के उपाय खुशी-खुशी करेंगी।



## खुद से करें प्यार का वादा

**खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है, इसलिए अब से आप अपने को हमेशा खूबसूरत मानेंगी। आपके अंदर जो भी खासियत है, उसे और भी निखारेंगी और जो चीजें आपको शर्मिंदा महसूस करवाती है, उन्हें कम करने की कोशिश करेंगी।**

नया साल हमें जिंदगी को एक बार फिर नए तरीके से जीने के लिए कहता है। नए साल पर आप अपने से यह वादा करें कि हमेशा अपने आप से प्यार करेंगी। अब से आपने चाहे कोई हेयरस्टाइल करवाई हो या फिर कोई नई ड्रेस पहनी हो तो उसमें खुद को अच्छा महसूस करेंगी। अपने अंदर यह आत्मविश्वास लाएंगी कि आप जो भी पहन रही हैं, उसमें पूरी तरह परफेक्ट लग रही हैं। खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है, इसलिए अब से आप अपने को हमेशा खूबसूरत मानेंगी। आपके अंदर जो भी खासियत है, उसे और भी निखारेंगी और जो चीजें आपको शर्मिंदा महसूस करवाती है, उन्हें कम करने की कोशिश करेंगी।

कुछ महिलाएं अपनी त्वचा के रंग को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहती हैं, पर आप बिल्कुल भी ऐसा न करेंगी। आप अपनी त्वचा के रंग पर परेशान होने के बजाय यह कोशिश करेंगी कि आपकी त्वचा हमेशा ग्लो करती रहे। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है या फिर आपके लुक को लेकर आपका कोई करीबी नकारात्मक कमेंट करता है तो उससे अपना मुँह खराब करने की बजाय आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगी, बल्कि अब से आप अपने दिमाग में इस बात को रखेंगी कि दूसरों को भले आप पसंद न आएँ, पर आप अपने को पसंद करती हैं और

## चमकाएं बाल और त्वचा

अगर आप चमकदार त्वचा और हेल्दी हेयर चाहते हैं तो अपनी फूड लिस्ट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। ये चीजें आपको खूबसूरती के साथ-साथ बढ़िया सेहत से भी नवाजेंगी।

**विटामिन ए से भरपूर चीजें**

**क्या लें:** गाजर, पालक, ब्रोकली, पपीता, आम, आलू व टमाटर

**फायदा:** इन चीजों में कैरोटीन होता है, जो सनस्क्रीन का काम करता है और त्वचा को धूप से बचाता है। टमाटर में लाइकोपीन भी सनस्क्रीन का काम करता है, लेकिन जरूरी है कि टमाटर अच्छे से पका हो।

**सूखे मेवे**

**फायदा:** इनमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है जो त्वचा में नमी बनाए रखता है। अखरोट में बायोटीन होता है जो बालों को बढ़ाता है, झड़ने और दो मुह होने से रोकता है।

**विटामिन सी वाली चीजें**

**फायदा:** नींबू, आंवले, संतरे का खट्टापन शरीर में जाकर कोलेजन बनाता है, जो त्वचा की कोशिकाओं को जवाब रखता है, इससे झुर्रियां नहीं पड़तीं और त्वचा के घाव भी जल्दी भरते हैं। विटामिन-सी वाली चीजें आसानी से पच जाती हैं और अधिक मात्रा होने पर यूरिन के रास्ते निकल जाती हैं।

**अलसी के बीज**

**फायदा:** खाने को कुरकुरा बनाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर, ओमेगा थ्री फैटी एसिड व विटामिन ई से त्वचा की नमी बनी रहती है, मुँहासे नहीं होते। रोजाना एक चम्मच प्रयोग करें।

**विटामिन बी और कॉपर**

पुरुषों के बालों में सफेदी की शुरुआत दाढ़ी से होती है, जबकि महिलाओं में कनपटी की तरफ से। इसके प्रमुख कारण हैं: चिंता करना, विटामिन बी, आयरन, कॉपर और आयोडीन की कमी। इसके लिए धूम्रपान न करें, मटर, ब्रोकली, ब्राउन राइस, गाँठ गोभी खाएँ व ग्रीन टी पीएँ।

**तौर-तरीके बदलकर**

## खुश रहना सीखें

**मन खुश हो, तो तन दुरुस्त रहता है। इसलिए खुश रहने के लिए इन सुझावों को आजमा कर देखें -**

**खुद को एक्सप्रेस करें:** अमरीका की वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार खुद को खुलकर अभिव्यक्त करने से मन में खुशी के भाव आते हैं।

**दूसरों के लिए कुछ करें:** फोर्ब्स डॉट कॉम के शोध के मुताबिक दूसरों के लिए कुछ करने से खुशी मिलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, अपनों को उपहार देते हैं या उन पर खर्च करते हैं, तो मन को सुकून मिलता है।

**सकारात्मक सोचें:** अपनी सोच सकारात्मक रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें, जिनसे आपको प्रेरणा मिल सके।

दोस्तों व रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार रखें। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस के वैज्ञानिकों ने 30 साल तक एक लाख लोगों पर शोध के बाद पाया कि शिक्षा, राजनीति, सैलरी और संबंधों में से सबसे ज्यादा खुशी लोगों को अच्छे संबंधों से होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीएँ क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से कई बार मूड चिड़चिड़ा हो जाता है।

## आप संवरिए

**लेकिन जरा संभलकर**

**खास मौकों पर सज-संवरकर चेहरे की सुंदरता बढ़ाना वैसे तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कई बार रोजाना भारी-भरकम मेकअप करने की आदत और पुराने या कम गुणवत्ता वाले ब्यूटी उत्पाद कुछ देर की सुंदरता और लंबे समय की बीमारी लेकर आते हैं।**

**ब्लीच**

लोग स्किन की टैनिंग कम करने के लिए या चेहरे के बालों को छिपाने के लिए ब्लीच करते हैं, लेकिन इससे कई बार स्किन एलर्जी हो जाती है।


**उपाय:** ब्लीच को 24 घंटे पहले कान के पीछे लगाकर टेस्ट कर लें, अगर कोई एलर्जी न हो तभी ब्लीच करें। टैनिंग दूर करने के लिए ब्लीच कर रहे हैं तो संतरे, पपीते का पल्प या चंदन पाउडर लगा सकते हैं।

**डियो और परफ्यूम**

डियोडेंट का ज्यादा प्रयोग अंडरआर्म की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। खुजली की समस्या हो, परफ्यूम से छिंके आती हों या सांस के रोगी हों तो इनका प्रयोग न करें।  
**उपाय:** डियो या परफ्यूम में कैमिकल्स होते हैं, इन्हें सीधे बाँधी पर न लगाकर कपड़े पर लगाएँ।

**आई मेकअप के नुकसान**

अगर आप आई मेकअप करने के बाद आँखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो ऐसे में बैक्टिरिया कॉन्टैक्ट लेंस के माध्यम से आँखों में प्रवेश कर सकता है जिससे कॉन्जंक्टिवाइटिस का खतरा रहता है। कई बार मेकअप करने से बैक्टिरिया का मैनेन (झिल्ली) से संपर्क होता है।



**नेलपॉलिश**

नेलपॉलिश लगाने के बाद हमें नाखूनों की मूल नहीं दिखती जिससे पेट में इंफेक्शन हो सकता है।  
**उपाय:** नाखूनों की सफाई का ध्यान रखें और खाना बनाने या खाने से पहले नेलपॉलिश को सुखा लें।

**फाउंडेशन और ब्लशर**

इनके रोजाना प्रयोग से चेहरे के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं। त्वचा के अंदर जमी गंदगी और तेल बाहर नहीं आ पाते, जिससे छिद्रों में मवाद जमने से कोल-मुहसे होने लगते हैं।  
**उपाय:** ब्यूटी प्रोडक्ट की कालिटी का ख्याल रखें। त्वचा ऑयली है तो वॉटर बेस प्रोडक्ट और रूखी है तो ऑयल बेस स्किन प्रोडक्ट का प्रयोग करें।



## सोने और चांदी में आया उछाल

**नई दिल्ली ।** घरेलू बाजार में सोमवार को सोने और चांदी में तेजी आयी है। दिल्ली सराफा बाजार के खुलते ही माह के अंतिम दिन सोने-चांदी के दाम उपर आये हैं। सोने की कीमत 60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गयी जबकि चांदी के दाम 73 हजार रुपए प्रति किलो से अधिक है। वहीं 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60654 रुपए है, वहीं चांदी की कीमत 73954 रुपए है। बाजार जानकारों के अनुसार क्रवार 28 जुलाई को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 60569 रुपए था, जो सोमवार को 88 रुपए उछल के साथ 60654 रुपए पर आ गया है और 22 कैरेट सोना शुक्रवार को 56434 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 95 रुपए महंगा होने के कारण 56529 रुपए हो गया है। शनिवार और रविवार को दिल्ली का सराफा बाजार बंद रहता है, इसलिए शुक्रवार वाले दाम पर ही सोने और चांदी की बिक्री होती है। चांदी की कीमत 31 जुलाई को 87 रुपए उछल के साथ 73954 रुपए प्रति किलो हो गई।

## केप तकनीक ने लगभग 200

### कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया

**मुंबई ।** केप तकनीक ने कथित तौर पर सभी विभागों से लगभग 200 कर्मचारियों को निकाल दिया है। एक्सप्रेसवीपीएन, साइबरघोस्ट और प्राइवेट एक्सप्रेस इंटरनेट (पीआईए) सहित कई पॉपुलर वचुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सर्विस के लिए केप टेक्नोलॉजीज काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रभावित विभागों में एक्सप्रेसवीपीएन, प्राइवेट इंटरनेट एक्सप्रेस (पीआईए) और साइबरघोस्ट शामिल हैं। नौकरी से निकाले गए कई कर्मचारियों ने पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क नोटिफिकेशन के साथ अपनी बर्खास्तगी के बारे में बात की। एक लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है कि जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, केप टेक्नोलॉजीज (जिसमें एक्सप्रेसवीपीएन, साइबरघोस्ट और पीआईए वीपीएन ब्रांड शामिल हैं) को 1 जून को निजीकृत कर लिया गया और इस हफ्ते उन्होंने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स के लगभग 30 प्रतिशत की छंटनी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने उल्लेख किया, मैंने अपने कई अद्भुत सहयोगियों के साथ अपना पद छोड़ने का फैसला किया। मैं आधिकारिक तौर पर एक्सप्रेसवीपीएन और केप प्राइवेट डिवीजन के सीटीओ के रूप में अपने प्रस्थान की घोषणा कर रहा हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, केप के यूके, इजराइल, जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस, फिलीपींस, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग और साइप्रस समेत 10 ग्लोबल लोकेशन पर 1,000 से अधिक कर्मचारी हैं।

## जून में चाय उत्पादन घटकर 13.78 करोड़ किलो हुआ

**कोलकाता ।** इस साल जून में चाय उत्पादन सालाना आधार पर 3.7 प्रतिशत घटकर 13.78 करोड़ किलोग्राम रह गया है। जून 2022 में यह आंकड़ा 14.31 करोड़ किलोग्राम था। चाय बोर्ड के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन महीने के दौरान उत्तर भारत में 10 करोड़ 97 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ, जबकि दक्षिण भारत में उत्पादन मात्रा दो करोड़ 81.5 लाख किलोग्राम थी। उत्तर भारत में, असम में जून 2023 में छह करोड़ 35 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ, जबकि जून 2022 में यह आंकड़ा 51.6 लाख किलोग्राम था। उत्तर भारत के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल ने इस साल जून में चार करोड़ 26.4 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ। भारतीय चाय संघ (आईटीए) के सूत्रों ने कहा कि उत्पादन मात्रा में गिरावट का कारण प्रतिकूल मौसम का होना और बागानों में कीटों के हमले का होना है।



# पांच सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बाजार में उपलब्ध

## - हर साल होगी हजारों की बचत

### नई दिल्ली ।

भारत में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर के अलावा अब काफी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने लगे हैं। हालांकि, अब भी पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ियां अधिक महंगी हैं। ऐसे में मार्केट में आपको कई इलेक्ट्रिक कारों के विकल्प मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आप सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के भी हकदार हो सकते हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 1-1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी की राशि सीधे ग्राहक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। एमजी कॉमेट ईवी देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इसमें

17.3 केडब्ल्यूएच क्षमता की बैटरी पैक मिलती है। फुल चार्ज पर कॉमेट ईवी की रेंज 230केएम है। इस कार में कॉमेट में रियर-व्हील ड्रिव इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया है जो 42 बीएचपी की पावर और 110 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। कॉमेट की बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में 5-6 घंटे का समय लगता है। इसकी कीमत की बात करें तो कॉमेट ईवी की कीमत 7.98 लाख रुपये से 9.98 लाख रुपये (एक्स शोरूम) के बीच है। टाटा टियागो ईवी देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.69 रुपये से 11.99 लाख रुपये के बीच है। टाटा टियागो ईवी को कंपनी चा वेरिएंट में बेच रही है। वहीं

इसमें 19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी रेंज क्रमशः 250केएम और 315 है। टियागो ईवी का इलेक्ट्रिक मोटर 74 बीएचपी पावर और 114 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है। टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करें तो इसकी कीमत 14.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 30.2 केडब्ल्यूएच की लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी पैक मिलती है। इसमें पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया है जो कि 127 बीएचपी पावर और 245 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। टाटा टियागो ईवी देश की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक सेडान है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये के बीच है।

## सैमसंग भारत के सुपर प्रीमियम खंड में 50 फीसदी बाजार हिस्सेदारी खरीदेगी

**सियोल ।** दक्षिण कोरिया की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग की भारत के सुपर प्रीमियम खंड में 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने पर नजर है। कंपनी का कहना है कि वह अपनी फोल्डेबल डिवाइस गैलेक्सी फोल्ड 5 और गैलेक्सी फ्लिप 5 के जरिए इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगी। फिलहाल भारत के सुपर प्रीमियम स्मार्टफोन खंड में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का दबदबा है। इस श्रेणी में 1,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 82,000 रुपए) से अधिक कीमत वाले हैंडसेट शामिल हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष और मोबाइल अनुभव कारोबार के प्रमुख टीएम रोह ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य सुपर प्रीमियम खंड में गैलेक्सी फोल्ड 5 और गैलेक्सी फ्लिप 5 की पेशकश के साथ अपनी बाजार हिस्सेदारी को मौजूदा 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है। उन्होंने कहा कि भारत के सुपर प्रीमियम खंड में सैमसंग फोल्डेबल की बाजार हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत है। अब फोल्ड 5 और फ्लिप 5 की पेशकश के साथ हम इस खंड में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार सैमसंग ने 2023 की पहली तिमाही में 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ भारतीय बाजार का नेतृत्व किया और अल्ट्रा प्रीमियम श्रेणी (45,000 रुपये से अधिक के स्मार्टफोन) में इसकी हिस्सेदारी एक साल में 247 प्रतिशत बढ़ गई। हालांकि, 62 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ अल्ट्रा प्रीमियम खंड में एप्पल सबसे आगे रहा।



# शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

## सेंसेक्स 367367, निफ्टी 107 अंक उछला

### मुंबई ।

शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही लिवाली (खरीददारी) हावी होने से बाजार में ये उछाल आया है। हालांकि इंटू-डे कारोबार (एक ही दिन में शेयर खरीदने के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई 367.47 अंक करीब 0.56 फीसदी की बढ़त के साथ ही 66,527.67 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान संसेक्स 66,598.42 तक ऊपर जाने के बाद 65,998.90 तक नीचे आया। वहीं, दूसरी ओर पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) निफ्टी भी 107.75 अंक तकरीबन 0.55 फीसदी ऊपर आया है। निफ्टी दिन

के अंत में 19,753.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,772.75 की ऊंचाई तक जाने के बाद 19,597.60 तक फिसला। आज के कारोबार में संसेक्स के शेयरों में से 23 शेयर लाभ के साथ ही हरे निशान पर बंद हुए। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील और टीसीएस संसेक्स के शीर्ष पांच लाभ वाले शेयर रहे। सबसे ज्यादा बढ़त करीब 3.71 फीसदी एनटीपीसी के शेयरों में रही।

वहीं दूसरी ओर संसेक्स के शेयरों में से केवल 7 शेयर ही नुकसान में रहे। बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एचयूएल, आईटीसी और भारती एयरटेल के शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान बजाज फाइनेंस के

## रुपया गिरावट पर बंद

**मुंबई ।** अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सोमवार को एक पैसे की गिरावट के साथ ही 82.29 पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी कोषों की बिकवाली के कारण सोमवार को शुरूआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सात पैसे नीचे आकर 82.25 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें 84 डॉलर प्रति बैरल से अधिक होने से भी रुपए पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.23 पर खुला और बाद के कारोबार में यह 82.25 तक चला गया। यह पिछले बंद भाव के मुकाबले सात पैसे की गिरावट दिखा रहा है। रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 82.18 पर बंद हुआ था।



# शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

## सेंसेक्स 367367, निफ्टी 107 अंक उछला

### मुंबई ।

शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही लिवाली (खरीददारी) हावी होने से बाजार में ये उछाल आया है। हालांकि इंटू-डे कारोबार (एक ही दिन में शेयर खरीदने के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई 367.47 अंक करीब 0.56 फीसदी की बढ़त के साथ ही 66,527.67 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान संसेक्स 66,598.42 तक ऊपर जाने के बाद 65,998.90 तक नीचे आया। वहीं, दूसरी ओर पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) निफ्टी भी 107.75 अंक तकरीबन 0.55 फीसदी ऊपर आया है। निफ्टी दिन

के अंत में 19,753.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 19,772.75 की ऊंचाई तक जाने के बाद 19,597.60 तक फिसला। आज के कारोबार में संसेक्स के शेयरों में से 23 शेयर लाभ के साथ ही हरे निशान पर बंद हुए। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील और टीसीएस संसेक्स के शीर्ष पांच लाभ वाले शेयर रहे। सबसे ज्यादा बढ़त करीब 3.71 फीसदी एनटीपीसी के शेयरों में रही।

वहीं दूसरी ओर संसेक्स के शेयरों में से केवल 7 शेयर ही नुकसान में रहे। बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एचयूएल, आईटीसी और भारती एयरटेल के शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान बजाज फाइनेंस के

शेयरों को हुआ। इसके शेयर करीब 1.18 फीसदी तक गिरे। इसके अलावा एशियन पेंट्स और नेस्ले इंडिया के शेयर भी नीचे आये हैं। इससे पहले गत कारोबारी सत्र में संसेक्स और निफ्टी में गिरावट रही थी। इससे पहले आज सुबह बाजार की शुरुआत गिरावट पर हुई। बीएसई संसेक्स 100 अंक से अधिक गिरकर 66,050 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 19,650 के स्तर से नीचे फिसल गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय और उपभोक्ता शेयरों के कारण बाजार में गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों ने जून तिमाही के परिणामों के बीच अपनी स्थिति मजबूत की।

शेयरों को हुआ। इसके शेयर करीब 1.18 फीसदी तक गिरे। इसके अलावा एशियन पेंट्स और नेस्ले इंडिया के शेयर भी नीचे आये हैं। इससे पहले गत कारोबारी सत्र में संसेक्स और निफ्टी में गिरावट रही थी। इससे पहले आज सुबह बाजार की शुरुआत गिरावट पर हुई। बीएसई संसेक्स 100 अंक से अधिक गिरकर 66,050 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 19,650 के स्तर से नीचे फिसल गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय और उपभोक्ता शेयरों के कारण बाजार में गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों ने जून तिमाही के परिणामों के बीच अपनी स्थिति मजबूत की।

# फोर्ड ने अमेरिका में 870,701 एफ-150 ट्रकों को रिकॉल किया

### सैन फ्रांसिस्को ।

फोर्ड मोटर ने अमेरिका में 870,701 एफ-150 ट्रकों को रिकॉल किया है, जिनके इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक में संभावित रूप से वायरिंग से संबंधित समस्या हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित एफ-150 पिकअप के मॉडलों को 11 सितंबर से शुरू होने वाली रिकॉल और मरम्मत कार्यों के पत्र प्राप्त होने हैं, उसी तारीख को डीलरों को एफ अधिभूचना जारी की जाएगी। 23 फरवरी, 2023 को, फोर्ड के क्रिटिकल कंसर्न रिव्यू ग्रुप ने 2021 मॉडल वर्ष एफ-150 वाहनों पर पार्किंग ब्रेक अनुप्रयोगों का वर्णन करने वाली रिपोर्टों की जांच शुरू की थी। वारंटी और फ्रीड रिपोर्ट दोनों से पता चला कि रियर परिणामस्वरूप वाहन का नियंत्रण खो सकता है

और इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। वापस बुलाए गए ट्रकों का निर्माण तीन साल की अवधि के दौरान किया गया था। प्रभावित होने वाले 870,701 ट्रक मॉडल वर्ष 2021 से 2023 तक के हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित एफ-150 पिकअप के मॉडलों को 11 सितंबर से शुरू होने वाली रिकॉल और मरम्मत कार्यों के पत्र प्राप्त होने हैं, उसी तारीख को डीलरों को एफ अधिभूचना जारी की जाएगी। 23 फरवरी, 2023 को, फोर्ड के क्रिटिकल कंसर्न रिव्यू ग्रुप ने 2021 मॉडल वर्ष एफ-150 वाहनों पर पार्किंग ब्रेक अनुप्रयोगों का वर्णन करने वाली रिपोर्टों की जांच शुरू की थी। वारंटी और फ्रीड रिपोर्ट दोनों से पता चला कि रियर परिणामस्वरूप वाहन का नियंत्रण खो सकता है



थितिग्रस्त हो गई थी। 11 जुलाई, 2023 तक, फोर्ड को उत्तरी अमेरिका में तार फटने की स्थिति के लिए अगस्त 2021 से जुलाई 2023 की सीमा के भीतर 918 वारंटी और तीन फ्रीड रिपोर्टों के बारे में पता है। मार्च में, फोर्ड मोटर ने दोषपूर्ण बैटरी वाले 18 इलेक्ट्रिक एफ-150 लाइटनिंग पिकअप ट्रकों के लिए एक रिकॉल नोटिस जारी किया।

## गो फर्स्ट ने एनसीएलटी से रद्द टिकटों का पैसा लौटाने के लिए अनुमति मांगी

**नई दिल्ली ।** विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकांश (एनसीएलटी) से आग्रह किया है कि उसे तीन मई और उसके बाद की टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पैसा लौटाने की अनुमति दी जाए। नकदी संकट का सामना कर रही एयरलाइन कंपनी ने उड़ान सेवा तीन मई से निलंबित की हुई है। गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने एनसीएलटी को दिल्ली शाखा में नई याचिका दायर कर तीन मई और उसके बाद की यात्रा टिकटों का पैसा लौटाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस याचिका पर सोमवार को महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भट्टनगर की सदस्यता वाली एनसीएलटी पीठ सुनवाई करेगी। गो फर्स्ट को यह अनुमति मिल जाती है तो इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनका पैसा फंसा है।



## जेएसएल की इस्पात के बढ़ते आयात पर लगाम लगाने सरकार से हस्तक्षेप की मांग



### नई दिल्ली ।

स्टेनलेस स्टील विनिर्माता जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) ने चीन समेत चुनिंदा देशों से इस्पात उत्पादों के बढ़ते आयात पर लगाम लगाने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। जेएसएल के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा कि चीन और कुछ अन्य देश घरेलू बाजार में जमकर अपने उत्पाद भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से इनके आयात पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाने का आग्रह करते हैं।

सरकार वस्तुओं के आयात पर डंपिंगरोधी शुल्क (एडीडी) और प्रतिपूर्ति शुल्क (सीवीडी) लगा सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जून, 2023 में भारत में कुल इस्पात आयात में चीन, जापान, वियतनाम, सऊदी अरब, रूस, नेपाल और अमेरिका का हिस्सा पिछले साल के इसी माह

की तुलना में बढ़ा है। भारत में इस्पात का आयात जून में सालाना आधार पर 7.6 प्रतिशत बढ़कर 4.84 लाख टन हो गया। जून, 2022 में चीन से आयात 26.1 प्रतिशत था। वियतनाम से एक प्रतिशत था। हालांकि जून, 2023 में इस्पात आयात में चीन का हिस्सा बढ़कर 37.1 प्रतिशत हो गया, जबकि वियतनाम का हिस्सा भी बढ़ोतरी के साथ 4.8 प्रतिशत हो गया है।

स्टेनलेस स्टील क्षेत्र के लिए आगे नीतिगत ढांचे पर जिंदल ने कहा कि यह उद्योग की काफी लंबे समय से मांग रही है। उन्होंने कहा कि इस्पात क्षेत्र के लिए बनाए गए नियम और नीतियां हमारी स्थिति के बावजूद हमें प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योग अपनी क्षमता से कम पर परिचालन कर रहा है। समान अवसर के लिए इस क्षेत्र को हिस्सा पिछले साल के इसी माह

# छह करोड़ से ज्यादा आईटीआर किए जा चुके दाखिल

## - आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, इसके बाद लगेगा जुर्माना

### नई दिल्ली ।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रविवार शाम तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है। वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि 30 जुलाई को शाम साढ़े छह बजे तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जिसमें से 26.76 लाख आईटीआर रविवार को दाखिल किए गए। विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने के लिए फोन, लाइव चैट और सोशल मीडिया के जरिए करदाताओं की लगातार मदद की जा रही

है। वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है। जो लोग आज आईटीआर नहीं भर पाते हैं उन्हें कल से आईटीआर फाइल करने के लिए आइटीआर देना पड़ेगा। देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना वेतन के हिसाब से लगता है। 31 दिसंबर 2023 तक अधिकतम 5000 रुपए के जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल किया जा सकेगा। जिस व्यक्ति की कर योग्य आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उसे लेट फीस यह है कि आपको रिफंड की रकम तो मिलेगी लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको टीडीएस कटने की वजह से रिफंड मिलने वाला है तो उस पर ब्याज के लिए आज ही आईटीआर फाइल कर दें।



मिलेगा। जुर्माने के अलावा लेट आईटीआर फाइल करने के सबसे बड़े नुकसान में से एक यह है कि आपको रिफंड की रकम तो मिलेगी लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको टीडीएस कटने की वजह से रिफंड मिलने वाला है तो उस पर ब्याज के लिए आज ही आईटीआर फाइल कर दें।

## आरबीआई ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रख सकता है: विशेषज्ञ

### नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आगामी द्विमासिक नीति समीक्षा में लगातार तीसरी बार प्रमुख ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रख सकता है। विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रधान दरों में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू मुद्रास्फीति आरबीआई के सहनशील दायरे में नहीं हुई है। आरबीआई ने पिछले साल मई से ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की थी, हालांकि इस साल फरवरी के बाद से रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर स्थिर है। अप्रैल और जून में पिछली दो द्विमासिक नीति समीक्षाओं में इसमें बदलाव नहीं

किया गया। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 8-10 अगस्त को होगी। नीतिगत निर्णय की घोषणा 10 अगस्त को गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई दरों पर यथास्थिति बनाए रखेगा। इसका कारण यह है कि मुद्रास्फीति इस समय पांच प्रतिशत से कम चल रही है, लेकिन आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ने के साथ इसमें कुछ बढ़ोतरी का जोखिम होगा। एक अर्थशास्त्री ने कहा कि चूंकि 2,000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा के बाद नकदी की स्थिति अनुकूल हो



गई है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई मौजूदा रख पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि घरेलू मुद्रास्फीति का रख कैसे रहता है।

# वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

त्रिनिदाद (एजेंसी)। भारत और वेस्टइंडीज की टीमों मंगलवार को यहां के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच के लिए उतरेगी। दोनों ही टीमों को लक्ष्य इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना रहेगा। भारतीय टीम ने पहला जबकि वेस्टइंडीज ने दूसरा मैच जीता था। इससे अभी सीरीज 1-1 से बराबरी पर है।

दूसरे एकदिवसीय में भारत ने कप्तान रोहित शर्मा और अनुभवी विराट कोहली को आराम देते हुए युवा खिलाड़ियों का उतरा था पर उसका वह प्रयोग सफल नहीं है। मेजबान टीम के तेज गेंदबाजों रोमारियो शेफर्ड और गुडकेश मोती ने हार्दिक हार्दिक पंड्या की कप्तान में उतरी टीम को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया और मुकाबला जीता लिया। भारतीय टीम दूसरे एकदिवसीय में गेंदबाजी में भी कमजोर रही। केवल शार्दुल ठाकुर ही तीन विकेट लेकर प्रभावी गेंदबाजी कर पाये। कप्तान शार्दुल होप ने ओवर युवा कोसी काटी ने बेहतर बल्लेबाजी कर अपनी टीम को इस मैच में जीत दिलायी थी।

इस मैच में भारतीय टीम को दूसरे एकदिवसीय से सबक लेते हुए प्रभावी प्रदर्शन करना होगा। कैरिबियन में पिछे बल्लेबाजों के लिए अनुकूल नहीं है और ब्रायन लारा स्टेडियम में पिछले तीन मैचों में से एक भी मैच 200 रन का आंकड़ा पार करने में सफल नहीं रही। धीमी और नीची होने की आशंका के कारण पिच स्पिनरों को काफी सहायता प्रदान करेगी जो टर्निंग हालातों का फायदा उठा सकते हैं और उछल की कमी से लाभ उठा सकते हैं। इस पिच पर तेज गेंदबाज असरकारी हो सकते हैं।

अगले महीने होने वाले एशिया कप और फिर विश्व कप को देखते हुए इस सीरीज में भारतीय टीम युवाओं को अवसर दे रही है। अब तक संघर्ष करते दिख रहे सूर्यकुमार यादव का लक्ष्य इसमें बड़ा स्कोर बनाना रहेगा। वहीं कई बार वापसी करने के बावजूद प्रभावित नहीं कर सकें सैमसन के पास भी रन बनाने का अंतिम अवसर है। नंबर पर उतर सकते हैं। युवा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने



अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है पर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को लय में आना होगा। ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी अब तक उम्मीद के अनुसार नहीं खेल पाये हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक को भी अभी तक विकेट नहीं मिला है।

चाइनामैन कुलदीप यादव ने अब तक प्रभावी प्रदर्शन किया है। वहीं मेजबान वेस्टइंडीज की टीम इस सीरीज को जीतकर आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी। वह पहले ही एकदिवसीय विश्वकप के लिए कालीफाई नहीं करने के कारण निराश है।

दोनों ही टीमों इस प्रकार हैं

**भारत:** रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, रूतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, अक्षय पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, मुकेश कुमार।

**वेस्टइंडीज:** शार्दुल होप (कप्तान), रोवैन पॉवेल, एलिक अथानाजे, यानिक कारिया, कोसी कार्टी, डोमिनिक ड्रेक्स, शिमरोन हेटमायेर, अलजारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, काइल मायर्स, गुडकेश मोती, जेडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड, केविन सिनक्लेयर, ओशाने थॉमस।

## फीफा महिला विश्व कप: स्पेन को हराकर गुप-सी के शीर्ष पर जापान



**बेलिंगटन (एजेंसी)।** जापान ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के एकतरफा मुकाबले में सोमवार को स्पेन को 4-0 से हराकर गुप-सी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। बेलिंगटन रीजनल स्टेडियम पर खेले गये मुकाबले में हिनाटा मियाजवा (12वां, 40वां मिनट) ने विजेता टीम के दो गोल किए, जबकि रिको युकी (29वां मिनट) और मिना तनाका (82वां मिनट) ने एक-एक गोल जमाया। जापान को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दिलाते वाली मियाजवा ने 12वें मिनट में स्पेन की बैकलाइन में जाह बर्बाद और जुन एंडो के पास की मदद से गोल दागकर अपनी टीम का खाता खोला। युकी ने स्पेन की सेंटर-बैक इरेने पेरेडस को छकाकर 29वें मिनट में यह बढ़त देगुनी कर दी। पहले हाफ में स्पेन ने 77 प्रतिशत समय तक गेंद पर कब्जा रखा लेकिन यूरोपीय टीम एक बार भी गोल करने का मौका नहीं बना सकी। पहला हाफ खत्म होने से पहले

मियाजवा ने युकी से पास लेकर जापान का तीसरा गोल कर दिया। जापान ने 3-0 की बढ़त लेने के बाद मुकाबले में सहजता दिखाई और स्पेन को अपने अर्द्ध में पहुंचने के कम मौके दिये। तनाका ने 82वें मिनट में गोल दागकर जापान की विशाल जीत पर मुहर लगा दी। जापान ने पहले चरण में बिना कोई गोल दिये अपने सभी मुकाबले जीते हैं। सुपर-16 में जापान का सामना नॉर्वे से, जबकि स्पेन का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। दिन के दूसरे गुप-सी मुकाबले में जांबिया ने कोस्टा रिका को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट का विजयी अंत किया। जांबिया की पहली विश्व कप जीत में लुसोमो म्बिबा (तीसरा मिनट), बारबरा बांडा (31वां मिनट) और रेचल कुदुनजी (90+3वां मिनट) ने गोल किए। डेफेनी मोंगे (47वां मिनट) के गोल के बावजूद कोस्टा रिका इस टूर्नामेंट में जीत का स्वाद नहीं चख सकी।

## ब्रॉड के संन्यास लेने से दुखी हैं एंडरसन

द ओवल (एजेंसी)। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अपने साथी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के संन्यास लेने से दुखी हैं। एंडरसन और ब्रॉड की जोड़ी विश्व क्रिकेट में काफी अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही इन दोनों ने गहरी दोस्ती भी है। ये जोड़ी टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल जोड़ी मानी जाती है। इस जोड़ी ने कुल मिलकर 1037 विकेट लिए हैं। अपने जूनियर साथी के संन्यास की घोषणा से एंडरसन भावुक होकर रोने लगे। इनके लंबे समय तक एक साथ खेलने के बाद ब्रॉड का संन्यास जेम्स एंडरसन के लिए एक भावुक क्षण है। जब मैच के चौथे दिन एंडरसन से ब्रॉड के संन्यास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से मुझे उनकी कमी खलेगी। वह मेरे सबसे अच्छे साथी रहे हैं।

और वह हर समय मेरे लिए मौजूद रहे। यह कहते हुए एंडरसन भावुक हो गये। गोलतलब है कि ब्रॉड ने इंग्लैंड के लिए 167 टेस्ट मैच, 121 एकदिवसीय और 56 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 845 से अधिक विकेट लिए हैं। ब्रॉड ने 2007 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। ब्रॉड ने कहा कि यह उनके लिए अहम था कि उनका अंतिम मैच एंडरसन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, जिसे वह टेस्ट क्रिकेट का शिखर मानते हैं। ब्रॉड ने इसके बाद कहा, एशेज क्रिकेट ने मेरे अंदर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाला है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में होने वाली प्रतियुद्ध से लाभ हुआ। इस दौरान दर्शकों के हांसला बढ़ने का भी फायदा मिला।

## अब एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत-पाक मुकाबला

**बार्सिलोना (एजेंसी)।** मुंबई (इंफोएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट में होने वाला अहम मुकाबला अब 15 अक्टूबर की जगह एक दिन पहले 14 अक्टूबर को रखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और आईसीसी ने मैच की तारीख में ये बदलाव सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के बाद किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच की तारीख में बदलाव इसलिए करना पड़ा है क्योंकि 15 से ही नवरात्रि शुरू होने वाली है। गुजरात में इस दौरान गर्मा का आयोजन होता है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि मैच के



लिए सुरक्षा के इंतजाम करने में परेशानी आयेगी हालांकि अब तक मैच की तारीखों में बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम में कुछ और भी बड़े बदलाव हुए हैं। सारे बदलावों की घोषणा अभी होनी है। वहीं पुराने कार्यक्रम के अनुसार 14 अक्टूबर को इंग्लैंड और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच उबल हेडर

तारीख	मैच	स्थल
8 अक्टूबर	भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया	चेन्नई
11 अक्टूबर	भारत बनाम अफगानिस्तान	दिल्ली
14 अक्टूबर	भारत बनाम पाकिस्तान	अहमदाबाद
19 अक्टूबर	भारत बनाम बांग्लादेश	पुणे
22 अक्टूबर	भारत बनाम इंग्लैंड	लखनऊ
2 नवंबर	भारत बनाम नोदर्लैंड्स	मुंबई
5 नवंबर	भारत बनाम सायथ अफ्रीका	कोलकाता
11 नवंबर	भारत बनाम श्रीलंका	बेंगलुरु

मुकाबला खेला जाना था।

सुरक्षा एजेंसियों का कहना था कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसके कारण देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं। वहीं भारत-पाक के मैच में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहेगा।

ऐसे में एक साथ लाखों लोगों को सुरक्षा को लेकर समस्या पैदा हो सकती थी। जिसके बाद से ही बीसीसीआई ने तारीखों पर सोच-विचार कर रखा था।

## आईपीएल में लगाये पांच छकों से बदला जीवन : रिकू

मुम्बई। आक्रामक बल्लेबाज रिकू सिंह ने कहा है कि आईपीएल में खेली पारी ने एक ही रात में उनकी किस्मत दी है। रिकू ने आईपीएल के 16 वें सत्र में केकेआर की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम ओवर में पांच छकों लगाकर अपनी टीम को जीत दिलायी थी। उस मैच में रिकू ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम ओवर में गुजरात टाइटंस के गेंदबाज यश दयाल की गेंद पर लगातार पांच छकों लगाकर अपनी टीम को जीत दिलायी थी। रिकू ने कहा कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल करने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गयी है। अब वह एशियाई खेलों में टीम इंडिया की ओर से खेलने को लेकर उत्साहित है जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंगे। वहीं एक वीडियो में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया पर रिकू के हवाले से दयाल के खिलाफ लगाये पांच छकों और टीम इंडिया के एशियाई खेलों की क्रिकेट टीम में शामिल होने के बारे में बात की है। जिसमें उन्होंने कहा, उन पांच छकों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। वहीं एक वीडियो में रिकू ने कहा, पहले लोग मुझे जानते थे पर उतना नहीं। उन पांच छकों के बाद उन्होंने मुझे और अधिक जाना शुरू कर दिया है। यह वास्तव में अच्छा लगाता है। अब अकेले बाहर जाना कठिन है, इसलिए मैं कम ही बाहर जाता हूँ। वहीं रिकू ने कहा कि वह एशियाई खेलों की टीम में अपना देखकर हैरान रह गये। उन्होंने कहा, जब मैंने अपना नाम देखा, तो मैं भावुक हो गया। मैं इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा था।

## अगर भारत को सीरीज जीतनी है तो इन दो खिलाड़ियों को वापस आना चाहिए : आकाश चोपड़ा

मुंबई। भारत मंगलवार को त्रिनिदाद में तीसरे और अंतिम वनडे में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा। जहां मेजबान टीम ने शुरुआती गेम जीता, वहीं मेजबान टीम ने अगले मैच में छह विकेट से जीत के साथ सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। भारत ने पिछले मैच में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया था और पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर प्रबंधन को लगता है कि यही आगे बढ़ने का रास्ता है तो उन्हें प्रयोग जारी रखना चाहिए। आकाश चोपड़ा ने कहा, 'यदि आपको प्रयोगों के लिए श्रृंखला देखनी थी, तो रुकें क्यों? यदि आप इस दर्शन के साथ चल रहे हैं कि 'मैं बहुराज्य क्रिकेट को आजमाने जा रहा हूँ, मैं उन खिलाड़ियों को मौका देने जा रहा हूँ जिन्हें पर्याप्त खेल का समय नहीं मिला है।' 'वयों बदलें? आपने इसे पहले गेम में किया है, आपने इसे दूसरे गेम में किया है। 'उन खिलाड़ियों को अधिक मौके दें जिन्हें अतीत में पर्याप्त अवसर नहीं मिले है।' इसके बाद चोपड़ा ने विरोधी दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि अगर टीम की तीसरी वनडे और श्रृंखला जीतने को अपनी संभावनाओं को अधिकतम करना चाहती है, तो उन्हें अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली को लाइन-अप में लाना होगा। उन्होंने कहा, 'इसका मतलब यह भी होगा कि संजू सैमसन या सूर्यकुमार यादव जैसे किसी को मौका देना बंद हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को बाहर बैठना होगा। अक्षय पटेल को दूसरा मौका नहीं मिलेगा।' गेंदबाजी के मोर्चे पर, चोपड़ा नहीं चाहते कि भारत को दूसरे वनडे की तरह 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना पड़े। उन्होंने कहा, 'भारत के पास गेंदबाजी के बहुत सारे विकल्प हैं। जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है तो उनके पास चार हैं। उन्होंने पिछले गेम में लगभग तीन गेंदबाजों को खेले थे। आपको गेंदबाजों के लिए अनुकूल सतह पर एकदिवसीय मैच खेलने के लिए सतह विकल्पों की जरूरत नहीं है। ऐसी पिच पर जहां रन बनाना मुश्किल है और गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको बदलने की जरूरत नहीं है।'

## विश्वकप के पहले टीम की असफलता से बढ़ी द्रविड और रोहित की परेशानी

**ब्रिजस्टोन (एजेंसी)।** विश्वकप से ठीक पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। जिस प्रकार वेस्टइंडीज जैसे कमजोर टीम के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी असफल रही। उससे विश्वकप को लेकर टीम की तैयारियों की पोल खुल गयी है। टीम ने जहां पहले एकदिवसीय में 115 रनों का लक्ष्य हासिल करने में पांच विकेट गंवा दिये थे। वहीं दूसरे मैच में भी बल्लेबाज नाकाम रहे और 200 रन भी नहीं बना पाये। ईशान किशन के अलावा सभी बल्लेबाज विकल रहे। सूर्यकुमार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाये। संजू सैमसन और अक्षय पटेल ने भी निराश किया। वेस्टइंडीज टीम कितनी कमजोर है उसका अंदाज इसी से लगता है कि वह इस बार विश्वकप के लिए कालीफाई भी नहीं कर पाये हैं। विश्व कप से पहले टीम को अब 10 ही खेलने हैं। ऐसे में टीम के खराब प्रदर्शन ने



कप्तान और कोच की चिंता बढ़ना लाजिमी है। टीम के लिए चिंता की बात ये है कि सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अब तक रन नहीं बना पाये हैं। शुभमन ने पहले मैच में 7 तो दूसरे मैच में 34 रन बनाए, वे टेस्ट सीरीज में भी 50 रन की पारी नहीं खेल सके थे। वहीं पहले मैच में नंबर-3 पर विराट कोहली की जगह

बल्लेबाजी के लिए आये सूर्यकुमार यादव ने भी निराश किया जबकि दूसरे मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को अवसर दिया गया पर वह भी रन नहीं बना पाये। सूर्यकुमार ने 19 जबकि सैमसन ने 9 रन बनाए। इस प्रकार टीम का ये प्रयोग सफल नहीं रहा। सूर्या भी दोनों मैच में नाकाम रहे। ऐसे में वर्ल्ड कप में नंबर-3 की जिम्मेदारी पूर्ण कप्तान विराट कोहली को ही निभानी होगी।

टीम के मिडिल ऑर्डर और खासकर नंबर-4 पर पहले मैच में हार्दिक पंड्या और दूसरे में अक्षय पटेल भी रन नहीं बना पाये। बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या दोनों ही मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाये। पंड्या गेंदबाजी में भी अब तक अधिकतम छह ओवर ही फेंक पाये हैं। ऐसे में वह विश्वकप में शायद ही 10 ओवर का कोटा पूरा कर सकें। इसके अलावा युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक भी नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में टीम को अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी का इंतजार है

## 2024 टी20 विश्व कप के लिए आयोजन स्थलों की जांच कर रही आईसीसी

दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अगले साल 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप 2024 के लिए अस्थायी रूप से चार से 30 जून की विंडो तक की है। इसके साथ ही आईसीसी की एक टीम ने अमेरिका के आयोजन स्थलों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। इस बड़े आयोजन की मेजबानी के लिए अमेरिका की तैयारी के बारे को लेकर आशंका थी पर आईसीसी टीम ने इस हलचल में कोई भी मेजबानी के लिए तय स्थानों का दौरा किया और इस की बातों को आधारहीन बताया। दल ने लॉन्ड्रिल, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, डलास और मॉरिसविले में स्टेडियमों का निरीक्षण किया। इसमें से लॉन्ड्रिल ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की है। इसमें और 12 और 13 अगस्त को भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा और पांचवां टी20 मैच भी खेला जाएगा। वहीं डलास (ग्रेड प्रेयर स्टेडियम) और मॉरिसविले (वर्च स्टीट पार्क) के स्टेडियमों में इस समय मेजर लीग क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं। इन दोनों मैदानों के अलावा न्यूयॉर्क के वान कौंटेंट पार्क को अभी तक आईसीसी से अंतरराष्ट्रीय स्थल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, जो शीर्ष स्तर के क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए जरूरी है। न्यूयॉर्क के स्टेडियम की क्षमता 35000 दर्शकों की और विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच के मेजबान के रूप में तय किया गया है। इसकी बड़ी वजह इस शहर में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। अभी तक हालांकि इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि स्टेडियम अभी भी तैयार हो रहा है। आईसीसी को उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द इस पर काम किया जा सकता है। आईसीसी बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि आईसीसी को न्यूयॉर्क सिटी हॉल और मेयर का समर्थन प्राप्त है। इसलिए, हमें उम्मीद है कि काम समय पर पूरा हो जाएगा।

## सिंधू, श्रीकांत को ऑस्ट्रेलिया ओपन में वापसी की उम्मीद, फोकस प्रणय और सेन पर

**सिडनी (एजेंसी)।** भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू और किरावही श्रीकांत मंगलवार से यहां शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन के जरिये अपने खराब फॉर्म को अलविदा कहना चाहेंगे। सुपर 500 टूर्नामेंट के तौर पर अपग्रेड किए गए इस टूर्नामेंट के जरिए सिंधू और श्रीकांत के पास अपना खोया फॉर्म फिर हासिल करने का यह आखिरी मौका है।

विश्व चैम्पियनशिप डेनमार्क के कोपेनहेगन में खेली जाएगी। 2019 विश्व चैम्पियन सिंधू चोट से उबरने के बाद फॉर्म में नहीं हैं और इस साल 12 बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर टूर्नामेंटों में से सात में जेन्वी बाहर हो गये। इस साल सिंधू ने कोरियाई कोच पार्क ताए सांग से नाता तोड़ लिया और नये कोच मोहम्मद हकीम हाशिम के आने से पहले साइ की ओर विधि चौधरी के साथ काम कर रही थीं।

लगातार टूर्नामेंटों के बीच अब दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू के पास समय नहीं है।

यहां पहले दौर में हमवतन अम्बिता चालिहा के खिलाफ खेलने से पहले उन्हें कोच के साथ अपनी रणनीति पर काम करना होगा। दोनों का सामना अंतरराष्ट्रीय सफ़्टिफ 2022 इंडिया ओपन में ही हुआ है जिसमें सिंधू विजयी रही थीं। इसके अलावा 2019 सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भी सिंधू ने चालिहा को हराया था। श्रीकांत भी इस सप्ताह जीत दर्ज नहीं कर सके। उन्होंने जापान ओपन में चीनी ताइपे के चोउ तियेन चैन को हराया लेकिन भारत के ही एच एस प्रणय से हार गए। जापान के केंता निशिमोटो के खिलाफ उन्हें अपनी गलतियों पर काबू रखना होगा। भारत के लिए इस सत्र में प्रणय, लक्ष्य सेन और दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी

सात्विकसाइराज रंकीरेड्डी और चिराग श्रेष्ठी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। सात्विक और चिराग ने इस सत्र में चार खिताब जीते लेकिन 21 से 27 अगस्त तक होने वाली विश्व चैम्पियनशिप की तैयारी के लिए यहां नहीं खेल रहे हैं।

प्रणय और सेन ने भी इस सत्र में खिताब जीते हैं। प्रणय तीन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 खिताब जीता। जापान में सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी विक्टर एम्सेलेसेन को वह हरा ही चुके थे लेकिन निर्णायक गेम में चूक हो गई। सेन ने इस सप्ताह दुनिया के नौवें नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को कड़ी टक्कर दी। प्रणय का सामना यहां हांगकांग के ली चिचुक यू से होगा जबकि कनाडा ओपन विजेता सेन चीन के लू गुआंग जू से खेलेंगे। प्रियांशु राजावत पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया



के नाथन टैंग से खेलेंगे। मिथुन मंजूनाथ का खेल कांस्य पदक विजेता गायत्री गोपीचंद और आकर्षक करियर की टक्कर मलेशिया की गो जिन वेड से होगी जबकि तस्नीम मीर इंडोनेशिया की कोमांग आयु सी देवी से और माल्दिवों की बसोड

चीनी ताइपे की पाह यू पो से खेलेंगी। राष्ट्रमंडल खेल कांस्य पदक विजेता गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली महिला युगल में और रोहन कपूर तथा एन सिक्की रेड्डी मिश्रित युगल में उतरेंगे।

## शतरंज विश्व कप में खेलने उतरेंगी प्रज्ञानन्दा - वैशाली भाई बहन की जोड़ी

चेन्नई। भारतीय शतरंज में सबसे सफल भाई बहन की जोड़ी प्रज्ञानन्दा और वैशाली कल से विश्व कप खेलने नजर आयेगी, दोनों ने शतरंज ओलंपियाड में टीम पदक के अलावा व्यक्तिगत कांस्य पदक भी जीता था और ऐसा करने वाले दुनिया की पहली भाई बहन की जोड़ी बन गए थे, प्रज्ञानन्दा के पसंदीदा खिलाड़ी मैगनस कार्लसन ने तो वैशाली के विधानाथन आनंद, हाल में ही प्रज्ञानन्दा ने शतरंज में 2700 का जादुई आंकड़ा पार किया है तो वैशाली ने तुर्की लीग में शानदार खेल दिखाते हुए ग्रांड मास्टर बनने की ओर कदम बढ़ाए हैं, विश्व कप के लिए वैशाली ने चेन्नई से तो प्रज्ञानन्दा ने हंगरी से रवाना होने के पहले चेसबेस इंडिया और पंजाब केसरी से खास बातचीत की। प्रज्ञानन्दा ने 2700 रेटिंग पार करने पर कहा की 'बड़े टूर्नामेंट में आमंत्रण मिलने के हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है, पर मेरे लिए यह एक पड़ाव है, मैं बहुत दिनों से ऐसा होने की उम्मीद कर रहा था पर आखिरकार यह हो गया पर अभी बहुत आगे जाने है तो अपनी यात्रा पर ध्यान लगा रहा हूँ' आज भी वह खेल को कितना समय देते है इस सवाल के जबाब में उन्होंने कहा 'यह इसके बारे में नहीं है मैं कितना समय शतरंज को देता हूँ बस मैं अच्छी योजना के साथ तैयारी करता हूँ और टैनिंग की गुणवत्ता अच्छी रखता हूँ। अपने टीम में के बारे में बात करते हुए प्रज्ञानन्दा कहते हैं की 'गुकेश का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है साथ ही वह उभरने में बहुत अच्छे है जहां कोई भी गलतियों कर सकता है ऐसी स्थितियों जो नियंत्रण में नहीं रहती है अर्जुन की ओपनिंग बहुत अच्छी है वो बहुत सारी ओपनिंग खेलाते है और उसे उसकी अच्छी समझ है, और निहाल विल्टज में एक शतक बन जाता है। अपनी टैनिंग के बारे में वह आरबी रमेश और विधानाथन आनंद दोनों का धन्यवाद करते हैं।



## फाइनल में लौरा सीजमंड को हराकर शीर्ष वरीयता प्राप्त स्वियातेक ने जीता खिताब


वारसो। शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक ने पोलैंड ओपन के फाइनल में लौरा सीजमंड को 6.0.6.1 से हराकर इस साल का अपना चौथा खिताब जीत लिया। फ्रेंच ओपन चैम्पियन स्वियातेक ने टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया। वह इस साल दोहा और स्टेटगार्ट में भी खिताब जीत चुकी है। पोलैंड की इस खिलाड़ी ने कहा, 'मैं अपनी टीम और परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहां खेलना आसान नहीं था लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जीत सकी।' उन्होंने सेमीफाइनल में बेलजियम की यानिना विकमायेर को 6.1.7.6 से मात दी थी। खराब रोशनी के कारण शनिवार को बीच में रोके जाने के बाद यह मैच रविवार की ही पूरा हुआ।



## चेन्नई लायंस को हराकर गोवा चैलेंजर्स ने खिताब जीता

पुणे। अल्वारो रोबेल्स, हरमीत देसाई और रीथ टैनिसन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत गोवा चैलेंजर्स ने कड़े फाइनल में रविवार को यहां गत चैम्पियन चेन्नई लायंस को 8-7 से हराकर अल्टीमेट टैलेंट टैनिसन (यूटीटी) के चौथे सत्र का खिताब जीता। हरमीत ने बेनेडिक्ट डुडा के प्रतियोगिता में अजेय अभियान को 2-1 की जीत के साथ रोका। रोबेल्स ने भारत के स्टार अर्चत शरत कमल को 3-0 से हराया। टैनिसन ने इसके बाद बेहद दबाव में अंतिम मैच में जीत दर्ज करके अपनी टीम को खिताब दिलाया।

## मुख्यमंत्री का ईज़ ऑफ़ ड्रिग बिज़नेस के अंतर्गत पारदर्शी व सरल प्रशासनिक सुशासन को गति देने का दृष्टिकोण



गांधीनगर।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में इनाम उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली जमीनों के कब्जा अधिकार (पंजेशन राइट) को नियमित करने को लेकर एक महत्वपूर्ण किसानोन्मुखी निर्णय किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ऐसे भूमि

धारकों के कब्जा अधिकार को वर्तमान जमीनी की 20 प्रतिशत क्रयमत वसूल कर नियमबद्ध करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस संदर्भ में प्राप्त हुई प्रस्तुतियों में कहा गया था कि स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में जमीनी की जुताई करने वाले को जमीनी के अधिकार देने तथा

भूमि धारकों के कब्जे नियमित नहीं हुए होने के कारण वे सरकार की किसान कल्याण योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाते थे और ऐसी जमीनों के ट्रांसफर तथा उद्देश्य परिवर्तन के समय टाइटल क्लियरेंस की समस्याएं बड़े पैमाने पर पैदा होती थीं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष प्रस्तुत की गई इन समस्याओं के आधार पर यह भी ध्यान में आया कि वर्तमान भूमि धारकों के सामने ऐसी जमीनों के विकास कार्य करने में भी बाधाएं पैदा हो रही थीं। मुख्यमंत्री ने राज्य में सुशासन को अधिक गति देते हुए पारदर्शी एवं सरल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ ईज़ ऑफ़ ड्रिग बिज़नेस के तहत ऐसे भूमि धारकों के कब्जे नियमबद्ध कर देने के जो दिशा-निर्देश दिए, उसके चलते

ऐसे पंजेशन अब नियमबद्ध हो सकेंगे। पूर्व में जिला कलेक्टर को जिला स्तर पर ढाई एकड़ तक भूमि के पंजेशन को ही नियमित करने का अधिकार था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के एक हिस्से के रूप में अब ढाई एकड़ भूमि की सीमा को समाप्त कर संपूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर को सौंपने का निश्चय किया है। इस प्रकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐसी जमीनों के स्वामित्वापण, कृष्यंतर (एनए) अनुमति, विकास कार्य के समक्ष उपस्थित होने वाली टाइटल क्लियरेंस की समस्याओं का निवारण लाने की दिशा में और किसानों के विशाल हित मत इस प्रकार की समस्याओं को जिला स्तर पर ही हल करने के उद्देश्य से यह किसानोन्मुखी निर्णय किया है।

रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून और संविधान को कोई नुकसान ना हो और संविधान के दायरे में रहते हुए कानून बनाकर गुजरात की बहन-बेटियों को सुरक्षा के लिए राज्य सरकार उचित फैसला करेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि अच्छे परिवार के युवक और युवती एक-दूसरे से प्यार करते हैं। जब उनके परिवार को इसका पता चलता है तो दोनों परिवार मिल बैठकर उसे मनेज करते हैं। जिसे हम लव विथ अरेज मैरिज कहते हैं। आज कानून इसलिए बनाया चाहिए ताकि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोका जा सके। ऐसी घटनाओं के कारण कई लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। हार्दिक पटेल ने यह भी कहा कि मैं केवल लव जिहाद की बात नहीं

## हार्दिक पटेल बोले - अगर माता-पिता ही खुश नहीं तो ऐसे लव मैरिज से क्या फायदा?

अहमदाबाद। गुजरात भाजपा के नेता और वीरमगाम से विधायक हार्दिक पटेल ने लव मैरिज को लेकर बड़ा सवाल किया है। हार्दिक पटेल ने कहा कि अगर माता-पिता लव मैरिज से खुश नहीं हैं तो ऐसे लव मैरिज से क्या फायदा? मेहसाणा में आयोजित एक कार्यक्रम में हार्दिक पटेल ने युवतियों को भाग ले जाने की घटनाओं के रोकथाम के लिए ठोस व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि अध्ययन कर इसके भी बेहतर नतीजे मिलें इसका पूरा प्रयास करेंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत में हार्दिक पटेल ने कहा कि युवतियों को फंसाने की जो साजिशें चल रही हैं उस पर रोक लगाना जरूरी है। गुजरात की भाजपा सरकार इस मामले में उचित और आवश्यक कदम उठा

करता। ऐसे कई घटनाएं हैं जिसमें कुछ लोग लड़कियों को फंसाने के लिए अपनी जाति और अपने परिवार की हकीकत छिपाते हैं। फिर बहला फुसलाकर युवती को अपने घर ले जाते हैं और उसके परिवार से दहेज की मांग करते हैं। दहेज ना मिले तो मारपीट, शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। जिसकी वजह से कई बेटियों को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि माता-पिता को भी बड़ा नहीं है। अगर माता-पिता खुश नहीं होंगे तो भले ही आप कितने भी सही हों माता-पिता दुखी रहेंगे। आखिर ऐसे लव मैरिज का क्या फायदा जिससे माता-पिता ही खुश ना हों? ऐसे अनेक मामलों में पारिवारिक समस्याएं भी पैदा होती हैं।

कापोद्रा में तेज रफता कार ने 3-4 मोटर साइकिलों को उड़ाया

## सूरत दौरे पर आए वाराणसी के महापौर



सूरत भूमि, सूरत। जा सकते और इस बारे में सूरत शहर की विकासशीलता की चर्चा पूरे देश में फैलाने के कारण वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी, सूरत महानगर का दौरा करने आए हैं। यहां के उत्तर भारतीय लोगों से मिलकर कुछ जानकारी प्राप्त किए। जिससे वाराणसी जैसे महानगर का विकास विस्तार पूर्वक किया

जा सकते और इस बारे में सूरत महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से तथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात लेकर शहर के विकास शीलता के रास्ते की जानकारी लेना चाहते हैं। जिसके लिए उन्होंने सूरत शहर में आकर सर्वप्रथम अपने समाज के कुछ लोगों को बुलाया और मुलाकात किया।

एचर पोर्ट' पर उत्तर भारतीय समाज के धीरज राय, राहुल भाई, बाबू सिंह तथा सूरत भूमि न्यूज पेपर के संपादक संजय मिश्रा भी एचरपोर्ट पर उपस्थित होकर उनका गुलदस्त से स्वागत किया गया। आज से वाराणसी के महापौर सूरत शहर का भ्रमण करेंगे। जिसमें उनके साथ सूरत महानगर पालिका

के अधिकारी तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ में रहकर उन्हें विकास की जानकारी देंगे जिससे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल काशी वाराणसी के विकास कार्य में सफलता प्राप्त हो सके और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहे। इसके लिए वाराणसी के महापौर साहब ने यह कदम उठाया।

## कापोद्रा में तेज रफता कार ने 3-4 मोटर साइकिलों को उड़ाया



सूरत। शहर के कापोद्रा क्षेत्र में तेज रफता कार ने 3-4 मोटर साइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त कार का चालक शराब के नशे में था। इस घटना में 6 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिसमें एक युवक को आईसीयू में भर्ती किया गया है। सूरत के कापोद्रा में बीती रात करीब 11 बजे हुई दुर्घटना ने अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज की याद ताजा करवा दी। अहमदाबाद के इस्कॉन

ब्रिज पर गत 19 जुलाई को एक रईशजादी ने अपनी कार जगुआर से सड़क पर खड़े कई लोगों को उड़ा दिया था। जिसमें 9 लोगों की घटनास्थल पर और एक की दूसरे दिन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। तेज रफता में कार चलाने की ऐसी ही एक घटना सूरत के कापोद्रा से सामने आई है। हालांकि इसमें कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन कार की चपेट में आए बाइक सवार घायल गए। जानकारी के मुताबिक सूरत के उतराण क्षेत्र का निवासी साजन पटेल कार खरीद-विक्री का काम करता है। रविवार की रात करीब 11 बजे साजन पटेल शहर के कापोद्रा क्षेत्र के बीआरटीएस रुट में तेज रफता में कार भगा रहा था। शराब के नशे में अंधाधुंध कार चले रहा साजन पटेल ने 3-4 मोटर साइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और साजन पटेल

को उसकी कार से बाहर निकालकर अच्छे से खातिरदारी की। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और साजन पटेल को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। जिसमें गंभीर रूप से घायल युवक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जबकि अन्य 4 लोगों का प्राइवेट अस्पताल में उपचार चल रहा है। पकड़े जाने के बाद साजन पटेल ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वह घर जा रहा था, तब अचानक मोटर साइकिलें सामने आई गई हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। साजन पटेल शराब के नशे में था लेकिन वह दावा कर रहा था, उधने शराब नहीं पी। पुलिस की पूछताछ में साजन ने बताया कि उसके बेटे का जन्म दिन था, इसलिए दोपहर को शराब पी थी। पुलिस ने साजन पटेल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है।

दो साल की बच्ची से रेप और हत्या केस का आरोपी दोषी करार

## अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न



सूरत भूमि, सूरत। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट की 11वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन दिनांक 30 जुलाई 2023 रविवार को डुमस स्थित अग्र एजॉटिका के क्रिस्टल हॉल में सुबह ग्यारह बजे से किया गया। सभा की शुरुआत महाराजा अग्रसेन जी के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात् ट्रस्ट के अध्यक्ष सीए. महेश मित्तल ने सभी का स्वागत करते हुए

PPT के मध्यम से अग्र समाज-को सामाजिक एकता (संगठन और सेवा) की बात करते हुए ट्रस्ट में आगामी योजनाओं के बारे में बताया। एवं साथ ही युवा और महिला को अधिक से अधिक मेंबर बनाने का संकल्प व्यक्त किया। सीए. महेश मित्तल ने बताया कि अग्रवाल जगणाना का कार्य शुरू हो चुका है और सभी से सहयोग की अपील की। इसके पश्चात् ट्रस्ट के सचिव रतन

चिरंजीलाल अग्रवाल एवं पदाधिकारियों द्वारा डायरेक्टरी का विमोचन किया गया। सभा के अंत में ट्रस्ट के सहसचिव अशोक सिंघल ने उपस्थित सभी का धन्यवाद किया। गणान के साथ सभा का समापन किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नवरलाल टटनवाला, सह-कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर सिहोठिया, मोतीलाल जालान सहित अनेकों सदस्य उपस्थित रहे।

है। सूरत के सचिन में कपलेठ क्षेत्र निवासी एक परिवार की दो साल की बेटि को इस्माइल उर्फ युसुफ सलीम हजाद बहला फुसलाकर अपनेसाथ ले गया था। काफी देर तक बेटि के घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस को भी इलाज कर दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस भी बच्ची की खोजबीन में जुट गई। उस दौरान बच्ची का शव एक बंद मकान के कपाडंड से बरामद हुआ। घटना का आरोपी इस्माइल उर्फ युसुफ पत्नार हो उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस्माइल ने भी बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। पांच महीने कोर्ट में सुनवाई के बाद आज आरोपी इस्माइल उर्फ युसुफ को दोषी करार दे दिया गया है और आगामी 2 अगस्त को उसकी सजा का ऐलान किया जाएगा।

## रेबन ने अपने पहले इन्वर्टेड लेंस 'रिवर्स' के साथ परंपरा को तोड़ा



दशक दर दशक रेबन एक नए क्षेत्र की खोज करने का साहस करते हैं। इस अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर रेबन रिबोल्यूशनरी रिवर्स कलेक्शन ने चार यूनिसेक्स धूप का चश्मा शैलियों को जारी किया है, जिसमें अर्सवग नए लेंस पूरी तरह से उलट हैं। कैप्पियन फिल्म में प्रसिद्ध सुपरमॉडल विटोरिया सेंटी को चेहरे के रूप में दिखाया गया है और दर्शकों को एक तेज गति वाले हाई

फैशन वीडियो के माध्यम से रिवर्स आईवियर पहने हुए मॉडल को दिखाया गया है। फिल्म चश्मे पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिवर्स की अवधारणा को जीवंत करने के लिए कोर्पो और फोकस के साथ खेलती है।

उन्नत इंजीनियरिंग की एक असाधारण उपलब्धि, नवोन्वेपी दृष्टिवैषम्य, फ्रिन्मीय और समाधान शक्तियों की बदौलत ऑप्टिकल परिशुद्धता का त्याग किए बिना लेंस का आकार पारंपरिक उतल से अवतल में बदल जाता है। पैटेंटकोपिक लेंस को तब उच्च-प्रदर्शन वाले एंटी-ग्लेयर उपचार के साथ प्राइम किया जाता है, जिससे तय देव्य पर 70% तक

प्रतिबिंब कम हो जाते हैं, जिसके प्रति आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। चार प्रतिष्ठित सिल्ट्यूक सिंग्लोबोर्ड के रूप में काम करते हैं जो अवंत-गार्ड में प्रवेश के साथ क्लासिक डिजाइन के अर्थ को उलट देता है।

हमारा रे-वैन रिवर्स कलेक्शन आईवियर उद्योग में एक सच्ची क्रांति है। एक्कोनकेव सौंदर्यास्त्र नई मालिकाना तकनीक द्वारा सक्षम है, जो लेंस डिजाइन में बड़े डेटा विश्लेषण को लागू करता है। उत्पाद शैली लाइसेंसिंग अंसिलोर लक्सेटिका के निदेशक और फेडरिंको बोफार ने कहा, "हम हमेशा उपभोक्ताओं के लिए आंखों की देखभाल और आईवियर क्या कर सकते हैं, इसका पुनराविचार करके स्तर को ऊपर उठा रहे हैं।"

## सावन मेले में उमड़ी महिलाओं की भीड़



सूरत भूमि, सूरत। मेले के पहले दिन ही महिलाओं की अच्ची भीड़ देखने को भांति इस वर्ष भी दो दिवसीय सावन मेले का आयोजन प्रज्वलन के साथ की गई। मुख्य अतिथि द्वारा संस्था द्वारा सोमवार से सिटी-लाइट स्थित इस मौके पर मुख्य अतिथि के माहेश्वरी भवन में किया गया। रूप में सूरत ट्रैफिक पुलिस

की DCP अमिता बनानी एवं पुलिस स्पेशल ब्रांच की DCP हेतल पटेल उपस्थित रहें। मुख्य अतिथि द्वारा संस्था द्वारा महिला को दिए प्लेटफार्म एवं उनके काम को प्रोत्साहन देने

के लिए सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। मेले का आयोजन कामकाजी महिलाओं द्वारा उनके अंदर छिपी हुई उभमिता व हुनर का प्रदर्शन करने के किए किया गया। कामकाजी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तरीकों के डिजाइनर परिधान, ज्वेलरी व अन्य आर्ट-क्राफ्ट वर्क, आगामी रक्षाबंधन के महेनजर आकर्षक डिजाइन राखी इत्यादि का मनमोहक कौशल प्रदर्शन आदि का सर्व समाज से भारी संख्या में उपस्थित महिला विजिटर्स हेतु मुख्य आकर्षण रहा। इस मौके पर संस्था की ऋ. गोयल, शशि जैन, विमल अग्रवाल, उमा जालान, रेखा कानुनगो सहित अनेकों सदस्य उपस्थित रहें।

H&M ने अहमदाबाद में अपना तीसरा स्टोर पैलेडियम मॉल में किया लांच

## H&M ने अहमदाबाद में अपना तीसरा स्टोर पैलेडियम मॉल में किया लांच



अहमदाबाद। सरसेनेबल तरीके से बेस्ट प्राइस पर फैशन और कालिटी के लिए मशहूर इंटरनेशनल रिटेलर H&M इंडिया ने अहमदाबाद में अपना तीसरा स्टोर नई लोकेशन अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल में लांच किया। 1749 वर्ग मीटर में फैला, लेटेस्ट

इंटीरियर ट्रेड्स के साथ डिजाइन किया गया ये स्टोर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को H&M का लेटेस्ट फैशन वाले कलेक्शन के साथ एक मॉडर्न और केलकॉमिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। नए स्टोर की ओपनिंग एक्साल्टिंग कोलैब्रेशन कलेक्शन जैसे डिज्नी 100 एक्स H&M, आर्टिस्ट

इन्प्रेशन करते हुए वेहद खुशी हो रही है, यह एक ऐसा शहर जहां 2018 में हमारे पहले स्टोर के खुलने के बाद से हमारे ग्राहकों से बेहरीन रिस्पॉंस मिला है। हम हमेशा एक शानदार फैशन एक्सपीरियंस प्रदान करने का प्रयास करते हैं जहां हमारे कस्टमर अपनी वॉइस तक को लेटेस्ट स्टडिल 799 रूप से शुरू होगा। आकर्षक ड्रेसेस और डेलिकेट टॉप फैशनेबल जींस के साथ-साथ सुंदर क्रॉप टॉप के साथ आते हैं। स्टूडिड शर्ट, क्लीन टी-शर्ट और कूल हुडी ड्यूबल डेनिम, स्मार्ट ट्राउजर और कम्फी जॉगर्स के साथ मेल खाते हैं। H&M इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर यानिग रामिरेज ने कहा कि "हमें अहमदाबाद में अपना तीसरा स्टोर का

मैं मौजूद है।